PARTAP INDUSTRIES LIMITED VILL. BEOPROR, DISTT. PATIALA, TEHSIL RAJPURA-147401

Email id:PARTAPLISTING2017@GMAIL.COM, CIN NO. L15142PB1988PLC008614,PH. 09354902535

Ref: PAR_LIS_2024-25-15

31st May, 2024

Head- Listing & Compliance

Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. (MSEI)

Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,

Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai – 400 098, India.

Ref: No. Stock Code: INE480Y01016 / PARTAPIND

Dear Sir /Madam

Sub: Submission of Newspaper advertisements

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the advertisements published in the newspapers as on 31.05.2024 w.r.t Quarterly Results 31.03.2024

Kindly take the same on record. Kindly take this letter on record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Partap Industries Limited

Neha

Compliance Officer & Company Secretary

Statement of Audited Financial Results for the year ended March 31, 2024

Sr. No.	Particulars	Current Quarter Ended	Preceding 3 months ended	Corresponding thromonths ended in the Previous Year
140.		31.03.2024 Audited	30.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited
1.	Total income from Operations	1,589.06	546.01	150.00
2.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (Before Exceptional and/or Extraordinary items)	4.15	20.51	(7.87)
3.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	2.44	20.51	(9.07)
4.	Net Profit / (Loss) for the Period After Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	2.44	20.51	(9.07)
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other comprehensive Income (After Tax)	2.44	20.51	(9.07)
6.	Reserve (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year	-	-]	-
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (a) Basic (b) Diluted	0.01	0.10	(0.05)

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format is also available on the websites of the Stock Exchange(s).

Place : Kolkata

Date : May 30, 2024

Puja Jain (Company Secretary)

For Julien Agro Infratech Limited

SAGARSOFT (INDIA) LIMITED CIN: L72200TG1996PLC023823 Regd. Office: Plot No. 111, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033. Phone: 040 67191000 Fax: 040 23114607. Website: www.sagarsoft.in email: info@sagarsoft.in

Notice to Members Service of Documents through Electronic mode

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular no. 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020 date

13.04.2020, 20/2020 dated 05.05.2020, 28/2020 dated 17.08.2020, 02/2021 dated 13.01.2021, 19/202 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021, 02/2022 dated 05.05.2022, 10/2022 dated 28.12.2022 an 09/2023 dated 25:09:2023 has allowed the companies to conduct their Annual General Meetings (AGM through Video-conferencing (*VC") or Other Audio Visual Means (*OAVM") on or before 30" September, 202and send financial statements (including Board's Report, Auditor's Report or other documents required to b attached therewith) and notices of General Meetings to the members only through e-mails registered with the company or with the depository participant/depository. Further SEBI vide circular No SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 date January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07 2023 has also relaxed the requirement of furnishing hard copy of Annual Reports to the Members.

AGM), Financial Statements, Directors' Report, Auditors Report, Postal Ballot papers and other communications as may be applicable to the members through electronic mode at the designated emaaddresses as furnished by them in the manner prescribed under the Companies Act, 2013, SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the relevant rules and circulars applicable In view of the above, Members are requested to register their e-mail addresses, Mobile No(s) or if any changes

The Company shall accordingly be sending all notices and documents like General Meeting Notices (including

therein, and the PAN number in the following manner: Members with physical holding: A signed request letter mentioning your tolio no, and the email id/Mobil

No/PAN (Self attested copy) that is to be registered (scanned copy of the signed request letter) may be sent to the company's e-mail id at into@sagarsoft.in and / or to the company's registrar and transfer agents, M/s KFin Technologies Limited email id: einward.ris@kfintech.com. Members with Demat Holding: Register/Update through respective Depository Participants (DPs) (Any such

updation effected by the DPs will automatically reflect in the company subsequent Records). For and on behalf of Sagarsoft (India) Limited

T. Sri Sai Manasa

Company Secretary Place: Hyderabad Membership No. A61433 Date : 30° May, 2024 **SWOJAS ENERGY FOODS LIMITED**

Registered Office: 6L, 10 Floor, 3, Navjeevan Society, Dr. Dadasaheb Bhadkamkar Marg, Mumbai Central, Mumbai - 400008

CIN: L15201MH1993PLC358584 Extract of Standalone Financial Results for the Quarter ended 31st March, 2024 (Figures are in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Current Quarter ending	Year to Date	Corresponding 3 months ended in the previous year
		31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-23
1	Total Income from Operations	25.94	39.70	5.79
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,			
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.39	6.17	-5.04
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.39	6.17	-5.04
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
П	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.51	4.38	-3.27
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)))	1	0
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.51	4.38	-3.27
6	Equity Share Capital	3096.27	3096.27	3096.27
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		-2741.45	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	(for continuing and discontinued operations) -			

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record by the Board in i meeting held on 29th May, 2024 and also Audit Report were carried out by the Statutory Auditors.

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock

1) Basic:

Dated: 29.05.2024

Rules.

0.00

0.00

-0.01

-0.01

0.01

0.01

Director - DIN No.: 00728370

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company' Website i.e (www.sefl.co.in) and on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) For Swojas Energy Foods Limited Place: Mumbai Vishal Dedhia

ADF FOODS LIMITED CIN: L15400GJ1990PLC014265

Regd Office: 83/86, G.I.D.C Industrial Estate, Nadiad - 387 001, Gujarat Tel No.: +91 268 2551381/82; Fax: +91 2682565068 Corp Off: Marathon Innova, B2, G01, Ground Floor, G. K. Road, Lower Parel, Mumbai-400 013. Tel No.: +91 22 61415555; Fax: +91 22 61415577; E-mail: co_secretary@adf-foods.com; Website: www.adf-foods.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven (7) consecutive years or more to the Demat Account of the IEPF The Final Dividend declared for the Financial Year 2016-17, which

remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF

Authority along with the corresponding shares on which dividends were

unclaimed will also be transferred as per the procedure set out in the

In compliance with the said Rules, the Company has communicated individually to the concerned Shareholders at their registered address inter-alia, providing the details of their unclaimed dividend for seven consecutive years and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Tuesday, 10th September, 2024 to avoid transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority. The list of Shareholder(s) along with their Folio Number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority is available on website of the Company at www.adf-foods.com for information and necessary action by the Shareholder(s).

In case no valid claim in respect of such equity shares is received from the Shareholders by 10th September, 2024 the said equity shares shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please note that: For Shares held in physical form: New Share Certificate(s) will be

- issued and transferred subsequently to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new Share Certificate(s), the original Share Certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.
- For Shares held in electronic form: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

The concerned shareholders may note that upon transfer of such shares to the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to the IEPF Authority. Upon transfer to the Demai Account of the IEPF Authority, the Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physica copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5 to the Nodal Officer of the Company.

subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfe Agents M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: ADF Foods Limited, C 101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel.: +91 81081 18484, Email: iepf.shares@linkintime.co.in. For ADF Foods Limited

Date: 31st May, 2024

Place: Mumbai

In case the shareholders have any queries or require any assistance on the

Shalaka Ovalekar

Company Secretary

Membership No. A15274

FINANCIAL EXPRESS



TATA MOTORS LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400001. Tel: +91 22 6665 8282 Email: inv rel@tatamotors.com

Website: www.tatamotors.com CIN - L28920MH1945PLC004520 NOTICE OF THE 79TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting ('AGM')

'Meeting') of Tata Motors Limited ('the Company') will be held on Monday, June 24, 2024 at 2:30 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and relevant circulars issued subsequently in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25, 2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars').

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and Securities and Exchange

Board of India ('SEBI') Circular Nos. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, respectively issued by Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars') along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, the Company has sent the Notice convening the 79th AGM through electronic mode on Thursday, May 30, 2024 to Members whose email addresses are registered with the Company/ National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depositories Services (India) Limited ('CDSL') (collectively referred to as 'Depositories'/'DPs')/ Registrar & Transfer Agent ('Registrar'/'RTA'). The Notice of the AGM of the Company along with the Integrated Annual

Report for the Financial Year 2023-24 (the 'Integrated Annual Report') of the Company is available on the website of the Company at https://www. tatamotors.com/annual-reports/. Additionally, it can also be accessed on the websites of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges, viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report to those Members who request for the same at inv_rel@tatamotors.com mentioning their Folio no./DP ID and Client ID. Members may attend and participate in the AGM only through VC/OAVM facility, as indicated in the Notice of the AGM. Please note that there will be no provision for attending and participating in person at the AGM of the Company.

Instruction for remote e-Voting before and during the AGM: Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, each as amended, the MCA Circulars and other applicables laws, the Company is providing the facility of remote e-Voting prior to the AGM and remote e-Voting during the AGM to enable its Members to cast their vote by electronic means for the the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as of the cut-off date, i.e., Monday, June 17, 2024 ('cut-off date') shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting provided by NSDL, either prior to the AGM or during the AGM. The remote e-Voting facility prior to the AGM would be available during the

following period:

Commencement of e-Voting	From 9.00 a.m. (IST) on Thursday, June 20, 2024
End of e-Voting	Upto 5.00 p.m. (IST) on Sunday, June 23, 2024
The facility of e-Voting will be n	Il be disabled by NSDL for voting thereafter, nade available during the Meeting and the

Members attending the AGM, who have not cast their votes prior to the Meeting, will be eligible to cast their votes through e-Voting during the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Ordinary Shareholders shall be in the same proportion to the paid-up ordinary share capital and in case of voting rights on the 'A'

Ordinary Shares, the shareholder shall be entitled to one vote for every ten

'A' Ordinary Shares held. Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again at the AGM.

Registration of e-mail address with the Company/DP and obtaining User ID and Password for e-Voting Members holding shares in physical mode and who have not updated their

email addresses with the Company are requested to update the same by writing to the RTA at csg-unit@linkintime.co.in. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their respective DPs. Alternatively, the Members may register their email addresses with Link Intime India Private Limited (erstwhile TSR Consultants Private Limited, merged with Link Intime India Private Limited w.e.f. December 22, 2023), the RTA of the Company, in order to receive the Integrated Annual Report by visiting the link https://liiplweb.linkintime. co.in/EmailReg/Email_Register.html on or before 5:00 p.m. IST on Monday, June 10, 2024. The detailed process for registering of email addresses will be provided in the Notice convening the AGM. Any person holding shares in physical form and non-individual Members,

who acquire shares of the Company and become Members of the Company after despatch of Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, June 17, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or the Company/RTA. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting, then they can use their existing user ID and password for casting their vote. If member has forgotten their password, they can reset their password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" options available on www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in Demat mode who acquire shares of the Company and becomes Members of the Company after despatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, June 17, 2024, may follow steps mentioned in the note to Notice under 'Access to NSDL e-Voting system'.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions for Members and e-Voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr Sanjeev Yadav, Assistant Manager- NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL are as given below: Login type Helpdesk details

Individual Members holding | Members facing any technical issue in login securities in demat mode can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at with NSDL 022 - 4886 7000 Individual Members holding | Members facing any technical issue in login securities in demat mode can contact CDSL helpdesk by sending a with CDSL request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33 Comprehensive guidance on (a) remote e-Voting before the AGM, (b)

of the AGM, which can be accessed and downloaded on the Company's website at: https://www.tatamotors.com/annual-reports/ The Board of Directors has appointed Mr. P N Parikh (Membership No. FCS 327) and failing him; Ms. Jigyasa Ved (Membership No. FCS 6488) and failing her; Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331) of M/s Parikh &

participation in and joining of the AGM through VC/OAVM. (c) e-Voting

during the AGM and (d) registration of email IDs, are available in the Notice

Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-Voting process as well as for e-Voting during the AGM, in a fair and transparent manner. The results of the remote e-Voting and e-Voting during the AGM shall be declared within two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on

the Company's website at www.tatamotors.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz. BSE and NSE and be made available on their respective websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. **For Tata Motors Limited**

Place: Mumbai

Date: May 30, 2024

Maloy Kumar Gupta Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner financialex Board Propagation whatsoever.



NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise) Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road New Delhi-110003, (CIN:L74899DL1960GOI003335) Tel: 011-24367314-18, 43591555 (EPABX) Email: co.sectt@nbccindia.com, website: www.nbccindia.in

NOTICE

Transfer of unclaimed dividend and equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) with respect to FY 2016-17

Notice be and is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules) and amendments made thereto, the Interim dividend declared during the financial year 2016-17 which remained unclaimed for seven years and corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years has been transferred to the IEPF. The details of such unclaimed dividend and shareholders are uploaded on the website of the Company at https://www.nbccindia.com/webEnglish/IEPFTransfer. The shareholders whose shares has been transferred to the IEPF

Authority can claim from IEPF Authority unclaimed dividend amount and the equity shares so transferred to IEPF by making an application in Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to the Company at its registered office i.e. Company Secretary, NBCC (India) Limited, NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi -110003 or to M/s Alankit Assignments Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company for verification of your claim. The Shareholders simultaneously with sending the physical copy of IEPF along with requisite documents may also send the same to the Company at investor.agm@nbccindia.com or to RTA at rta@alankit.com. For your information, the procedure and forms are available on the website of the Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in.

Shareholders holding shares in Demat form may contact the respective Depository Participants to update Address/Bank Details/NECS/ECS mandate, if any and Shareholders holding shares in Physical form may update their bank details by submitting hard copy of duly signed Form ISR-1 along with relevant documents mentioned therein to RTA. The said form is available at:

https://www.nbccindia.in/webEnglish/InvestorServiceRequest.

Sd/-Deepti Gambhir

For NBCC (India) Limited

Place: New Delhi Date: May 31, 2024 Company Secretary

PARTAP INDUSTRIES LIMITED Reod. Office: Vill Beopror, G.T. Raod, Near Shambhu Barrier,

Distt. Patiala, Punjab-140417, INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614, Email: partaplisting2017@gmail.com EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (INR in Lacs except per share data)

				STANDALONE			F
SL. NO.	PARTICULARS	For	the Quarter E	nded	For the Ye	ar Ended	П
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023	П
1	Total Income from operations	8922.46	7007.22	7713.24	28495.77	38809.94	П
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	486.08	59.45	(1,821.86)	453.69	2,782.63	
3	Total Comprehensive Income for the period	2,955.34	(120.80)	(1,647.77)	2,382.20	2,176.71	1
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each)	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02	
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation	15/21/07/2	00/840/850	75-7 HART 4-4 14	35-00av.0.5	0.007000	
	SYCHES IV.	720000	V7792000000	17020 0 000	1,470,03	17/2/27/2020	

	(for Continuing operation) & Discontinued Operation					
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97
	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97
		V.	(0	NR in Lacs o	xcept per s	hare data)
2.7			- 3	CONSOLIDATE		
SL. NO.	PARTICULARS	For	the Quarter E	ıded	For the Ye	ar Ended
550		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from operations	7,959.17	10,126.16	8,846.17	37,984.48	44,207.63
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	105.57	(376.37)	(2,215.39)	(631.98)	2,091.78
3	Total Comprehensive Income for the period	2,585.45	(556.62)	(2,008.81)	1,307.15	1,518.36
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/- each)	40.02	40,02	40.02	40.02	40.02
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation	1255002A	3000032	11/1/23/2	V0.000	1.20000
	(1) Basic	64.60	(13.91)	(50.19)	32.66	37.94

(2) Diluted

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msei.com and on the Company's website at www.partapdenim.com

Date: 30.05,2024 Place: Kolhapur

No.

For Partap Industries Limited Sudarshan Paul Bansal Chairman & Managing Director

32.66

(50.19)

MISHMISH DESIGNS LIMITED CIN: U74999MH2017PLC302175

Reg Off: Gala No. 4, Gulati Industries, Hattibaug Love Lane, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra, India, 400010

Website: www.mishindia.com | Email: info@mishindia.com NOTICE

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Members

of the Mish Designs Limited will be held on Friday, June 21, 2024 at 3:00 P.M. at the Registered Office of the Company at Gala No. 4, Gulati Industries, Hattibaug Love Lane, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra, India, 400010 to transact the business specified Item Description of the Resolution

	arrientification interioration of association of the company
2	To approve issue of equity shares on preferential basis
3	To approve the issue of warrants convertible into equity shares on preferential basis
electr	otice of EOGM along with Explanatory Statement is sent to Members in onic form to the Email-IDs registered with their Depository Participants se of electronic shareholding)/the company's Registrar and share transfer

To increase the authorised share capital of the company and consequent

Agent (in case of physical shareholding). For members whose Email IDs are not registered, we request shareholders to update their email ids with the depositories/ RTA as soon as possible. The Notice may also be accessed on the website of the company at www.mishindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') www.evotingindia.com. REMOTE E-VOTING: In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013

Date: May 29, 2024

read with the rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Company has offered remote e-voting facility for transacting the business through Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') to enable the members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the company with CDSL to facilitate e-voting. The details pursuant to the act are as under: The e-voting period will commence on Monday, June 17, 2024 (9:00 A.M.) and ends on Thursday, June 20, 2024 (5:00 P.M.). Thereafter, the e-voting

- module will be disabled. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paidup capital of the Company as on the cut-off date Friday, June 14, 2024.
- Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may write to CDSL on the e-mail ID i.e. helpdesk.evoting@cdslindia.com requesting for the User ID and password
- If the member is already registered with CDSL for e-voting, the member can use the existing User ID and Password for casting their vote through Remote e-voting. The detailed procedure pertaining to the User ID and Password is also provided in the Notice of the EOGM. For more information, kindly refer Notice of the meeting available on the company's website and CDSL.

FOR MISH DESIGNS LIMITED

KAUSHAL MAHESH GOENKA (CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR)

DIN: 02446587

Oswal Minerals Limited

Regd. Office: #8/11, Police Station Road, Pallavaram, Chennal-600043

CIN: L30006TN1996PLC035973 E-Mail: info@oswalminerals.com; Website; www.oswalminerals.com

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March, 2024 (₹ in Crores except EPS) Quarter Ended Year Ended Particulars 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 Audited Audited Audited 1 Total Income from Operations(Net) 407.02 685.13 1907.28 Net Profit from Ordinary Activities before Tax, 17.72 (54.81)(0.97)Exceptional and / or Extraordinary items

3 Net Profit for the period after Tax, Exceptional 13.24 (54.76) $\{0.92\}$ and / or Extraordinary items Paid-up Equity Share Capital 7.55 7.55 7.55 (Face value of ₹ 10/- each). Earnings Per Share (EPS) Basic and diluted EPS before Extraordinary items $\{1.22\}$ 17.54 (72.53)not annualized) (72.53)Basic and diluted EPS after Extraordinary items (1.22)17.54 (not annualized)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock

exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the Stock Exchange website (www.msei.in/index.aspx) and on the Company's website (www.oswalminerals.com)

The above Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2024 have been

reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 30th May, 2024. The above Financial results

for the year ended 31st March, 2024 have been audited by the Statutory Auditors. An unmodified

report has been issued by them thereon.

FOR AND ON BEHALF OF BOARD

DIN: 01000236

SRIPAL KUMAR MOHANLAL Place: Bangalore MANAGING DIRECTOR Date: 30th May, 2024

SYMBIOX INVESTMENT & TRADING CO. LTD CIN:L65993WB1979PLC032012

Regd. Off.: 221, RABINDRA SARANI, 3RD FLOOR, ROOM NO-1, KOLKATA-700007 Email ID. symvioxinvestment100@gmail.com; www. symbioxinvestment.com; Contact No. 033-3251-5833 STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 Rupees in Lakhs

			паросс	m Lakiio
	QUARTER	ENDED	YEAR EN	IDED
PARTICULARS	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Revenue			- 3	
Total Income	114.84	(13.04)	412.79	399.88
Expenses				
Total expenses	121.94	56.55	388.04	378.33
Profit before Exceptional Items and Tax (1 - 2)	(7.10)	(69.59)	24.75	21.55
Exceptional Items		-	-	-
Profit Before Tax (3 - 4)	(7.10)	(69.59)	24.75	21.55
Tax Expense	4.35	18.06	3.93	5.64
Profit for the year (5-6)	(2.75)	(87.65)	20.82	15.91
Total Comprehensive Income for the year	(2.75)	(87.65)	20.82	15.91
Paid-up equity share capital				
(Face Value of the Share Rs.10/- each)	3,12,87,330	3,12,87,330	3,12,87,330	3,12,87,330
Earnings per share (of Rs. 10/- each):				
(a) Basic	(0.009)	(0.280)	0.670	0.051
(b) Diluted	(0.009)	(0.280)	0.670	0.051
	Revenue Total Income Expenses Total expenses Profit before Exceptional Items and Tax (1 - 2) Exceptional Items Profit Before Tax (3 - 4) Tax Expense Profit for the year (5-6) Other Comprehensive Income (net of tax) Total Comprehensive Income for the year Paid-up equity share capital (Face Value of the Share Rs.10/- each) Earnings per share (of Rs. 10/- each):	Revenue	Revenue Total Income Total Income Total Income Total Income Total Income Total Income Total Expenses Total Expenses Total Expenses Total Expenses Total Expenses Total Expense Tot	Revenue Total Income Total Expenses Total Expense Total E

The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended 31st March, 2024, Financial Results filed with the Stock Exchange (website. www.bseindia.com) under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For Symbiox Investment & Trading Company Limited

SAMIT RAY Place: Kolkata Managing Director Date: 30/05/2024 DIN No. 08406285 **IRIS Business Services Limited**

Registered Office: T-231, Tower 2, 3rd Floor, IRIS Registered Office: 1-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi - 400 703, Maharashtra, India. Tel: +91 22 67231000, Email: cs@irisbusiness.com, Website: www.irisbusiness.com, Fax: +91 22 2781 4434

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VIDEO MEANS AND INFORMATION ON E-FACILITY

NOTICE is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting ('EGM' or 'Meeting') of the Members of IRIS Business Services Limited (the 'Company') will be held on Friday, June 21, 2024, at 11:00 a.m. (I.S.T.) through Video Conference (VC') / Other Audio-Visual Means

('OAVM'), to transact the Special businesses as set out in the Notice of the EGM dated May 30, 2024. In accordance with the General Circulars

issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') including General

Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No.

SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 issued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), the Company has sent the Notice of the EGM on May 30, 2024, through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent ('RTA') and Depositories as on Friday, May 24, 2024. The Members whose e-mail ids are not registered / updated with the Company/ RTA can avail the soft copy of the Notice of EGM by sending a request through e-mail to the Company at cs@irisbusiness.com or to NSDL at evoting@nsdl.com. Alternatively, the Notice and the Explanatory Statement of the EGM is available on the website of the Company at on the websites of the Stock Exchange(s) viz. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited

at www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before the EGM and e-voting during the EGM in respect of the businesses to be transacted at the EGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating the voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting

The details pursuant to provisions of the Act and the Rules framed thereunder are given below: a. All business items as set out in the Notice of EGM may be

- transacted by electronic means. Date and time of commencement of remote e-Voting facility
- Tuesday, June 18, 2024 at 09:00 A.M. (IST) Date and time of end of remote e-voting facility - Thursday,
- June 20, 2024 at 05:00 P.M. (IST) d. Members may note that:
- (I) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL on Thursday, June 20, 2024 at 05:00 P.M. (IST) and once the

are given in the Notice of the EGM.

vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; (ii) Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time; (iii) The voting rights of the Members shall be in proportion to

their share of the paid-up equity share capital of the

(iv) The facility of remote e-voting system shall also be made available during the meeting and the Members attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-voting before the EGM shall be able to exercise their right during the Meeting:

Company as on Friday, June 14, 2024 ('Cut-off Date').

(v) A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/during the EGM. (vi) Members who have cast their vote by remote e-Voting, prior

to the Meeting may also attend the Meeting electronically,

- but shall not be entitled to vote again. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending Notice and holding shares as of Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL/CDSL for remote e-voting then
- he/she can use his/her existing User ID and password for casting The detailed instructions for joining the EGM through VC/OAVM and casting the vote through remote e-voting/e-voting at the EGM is provided in the Notice of EGM. Members are requested to carefully go through the same. Members who need assistance before or during the EGM regarding e-voting facility and/or
- VC/OAVM facility, can send a request at evoting@nsdl.com Name: Ms. Pallavi Mhatre Designation: Senior Manager Address: National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,

or Mr. Santoshkumar Sharma, Company Secretary and Compliance Officer of the Company or via email on

communications by e-mail from the Company in future.

Place : Navi Mumbai

Date: 30/05/2024

Phone No.: 022 - 4886 7000 / 022 - 2499 7000

Lower Parel (West), Mumbai - 400 013.

cs@irisbusiness.com or at the Registered office address of the Company at T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi - 400703. The Board of Directors have appointed Mr. Rishit D. Shah (Mem. No. FCS 9522; C.O.P. No. 26870), of M/s. Rishit Shah & Co., Practicing

RTA in case shares held in physical form for receiving all the

Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting voting process in fair and transparent manner. Members are requested to register/update their e-mail addresses with their DPs in case shares held in dematerialised form and to Company/

> By Order of Board of Directors For IRIS Business Services Limited

Company Secretary & Compliance Officer

BENGALURU

Santoshkumar Sharma Membership No. ACS 35139

CIN: L72900MH2000PLC128943

Sr. No.	Particulars	Current Quarter Ended	Preceding 3 months ended	Corresponding three months ended in the Previous Year
NO.		31.03.2024 Audited	30.12.2023 Un-audited	31.03.2023 Audited
1.	Total income from Operations	1,589.06	546.01	150.00
2.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (Before Exceptional and/or Extraordinary items)	4.15	20.51	(7.87)
3.	Net Profit / (Loss) for the Period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	2.44	20.51	(9.07)
4.	Net Profit / (Loss) for the Period After Tax (Exceptional and/or Extraordinary items)	2.44	20.51	(9.07)
5.	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the period (After Tax) and other comprehensive Income (After Tax)	2.44	20.51	(9.07)
6.	Reserve (excluding Revaluation reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year	-	-	-
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (a) Basic (b) Diluted	0.01	0.10	(0.05)

1. The above is an extract of the detailed format for the vear ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format is also available on the websites of the Stock Exchange(s).

> For Julien Agro Infratech Limited (Company Secretary)

SAGARSOFT (INDIA) LIMITED

CIN: L72200TG1996PLC023823 Regd. Office: Plot No. 111, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033.

Phone: 040 67191000 Fax: 040 23114607. Website: www.sagarsoft.in email: info@sagarsoft.in

Notice to Members

Service of Documents through Electronic mode

13.04.2020, 29/2020 dated 05.05.2020, 28/2020 dated 17.08.2020, 02/2021 dated 13.01.2021, 19/202 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021, 02/2022 dated 06.05.2022, 10/2022 dated 28.12.2022 an 09/2023 dated 25,09,2023 has allowed the companies to conduct their Annual General Meetings (AGN through Video-conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("DAVM") on or before 30" September: 202 and send financial statements (including Board's Report, Auditor's Report or other documents required to be attached therewith) and notices of General Meetings to the members only through e-mails registered with the company or with the depository participant/depository. Further SEBI vide circular No SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 date January 15, 2021, SEBVHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBVHO/CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 0: 2023 has also relaxed the requirement of furnishing hard copy of Annual Reports to the Members. The Company shall accordingly be sending all notices and documents like General Meeting Notices (includin

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular no. 14/2020 dated 08:04:2020, 17/2020 date

AGM), Financial Statements, Directors' Report, Auditors Report, Postal Ballot papers and other communications as may be applicable to the members through electronic mode at the designated ema addresses as furnished by them in the manner prescribed under the Companies Act, 2013, SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the relevant rules and circulars applicable

In view of the above, Members are requested to register their e-mail addresses, Mobile No(s) or if any changes therein, and the PAN number in the following manner.

Members with physical holding: A signed request letter mentioning your folio no, and the email id/Mobil No/PAN (Self attested copy) that is to be registered (scanned copy of the signed request letter) may be sent to the company's e-mail id at info@sagarsoft.in and / or to the company's registrar and transfer agents, M/s KFin Technologies Limited email id: einward.ris@klintech.com. Members with Demat Holding: Register/Update through respective Depository Participants (DPs) (Any such

updation effected by the DPs will automatically reflect in the company subsequent Records). nd on behalf of Sagarsoft (India) Limited

T. Sri Sai Manasa

Place: Hyderabad Date : 30" May, 2024

Place: Mumbai

Dated: 29.05.2024

Place : Kolkata

Date: May 30, 2024

Company Secretary Membership No. A61433

SWOJAS ENERGY FOODS LIMITED Registered Office: 6L, 10 Floor, 3, Navjeevan Society, Dr. Dadasaheb Bhadkamkar

Marg, Mumbai Central, Mumbai - 400008 CIN: L15201MH1993PLC358584 **Extract of Standalone Financial Results for** the Quarter ended 31st March, 2024 (Figures are in Lacs)

	5		, 0	
Sr. No.	Particulars	Current Quarter ending	Year to Date	Corresponding 3 months ended in the previous year
30	3	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-23
1	Total Income from Operations	25.94	39.70	5.79
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,			
	Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.39	6.17	-5.04
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax	1		
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.39	6.17	-5.04
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.51	4.38	-3.27
5	Total Comprehensive Income for the period			
	[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)			
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.51	4.38	-3.27
6	Equity Share Capital	3096.27	3096.27	3096.27
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown		-2741.45	
	in the Audited Balance Sheet of the previous year		27 11.15	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	(for continuing and discontinued operations) -	1). (1	1	
	1) Basic:	0.00	0.01	-0.01
	2) Diluted:	0.00	0.01	-0.01

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record by the Board in its meeting held on 29th May, 2024 and also Audit Report were carried out by the Statutory Auditors.

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company' Website i.e (www.sefl.co.in) and on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com)

For Swojas Energy Foods Limited Vishal Dedhia

Director - DIN No.: 00728370



ADF FOODS LIMITED CIN: L15400GJ1990PLC014265 Regd Office: 83/86, G.I.D.C Industrial Estate, Nadiad - 387 001, Guiarat

Tel No.: +91 268 2551381/82; Fax: +91 2682565068 Corp Off: Marathon Innova, B2, G01, Ground Floor, G. K. Road, Lower Parel, Mumbai-400 013. Tel No.: +91 22 61415555; Fax: +91 22 61415577; E-mail: co_secretary@adf-foods.com; Website: www.adf-foods.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS TRANSFER OF THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO

INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven (7) consecutive years or more to the Demat Account of the IEPF. The Final Dividend declared for the Financial Year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF Authority along with the corresponding shares on which dividends were

In compliance with the said Rules, the Company has communicated individually to the concerned Shareholders at their registered address. inter-alia, providing the details of their unclaimed dividend for seven consecutive years and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Tuesday, 10th September, 2024 to avoid transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority. The list of Shareholder(s) along with their Folio Number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority is available on website of the Company at www.adf-foods.com for information and necessary action by the Shareholder(s).

In case no valid claim in respect of such equity shares is received from the Shareholders by 10th September, 2024 the said equity shares shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please note that: For Shares held in physical form: New Share Certificate(s) will be

- issued and transferred subsequently to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new Share Certificate(s), the original Share Certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery. For Shares held in electronic form: The shares will be directly
- transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

The concerned shareholders may note that upon transfer of such shares to the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect of the shares transferred to the IEPF Authority. Upon transfer to the Demat Account of the IEPF Authority, the Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physica copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5 to the Nodal Officer of the Company.

In case the shareholders have any queries or require any assistance on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents M/s. Link Intime India Private Limited, Unit: ADF Foods Limited, C-101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel.: +91 81081 18484, Email: iepf.shares@linkintime.co.in.

Date: 31st May, 2024

Place: Mumbai

For ADF Foods Limited Shalaka Ovalekar

Company Secretary Membership No. A15274



NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise) Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi-110003, (CIN:L74899DL1960GOI003335) Tel: 011-24367314-18, 43591555 (EPABX) Email: co.sectt@nbccindia.com, website: www.nbccindia.in

NOTICE

Transfer of unclaimed dividend and equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) with respect to FY 2016-17

Notice be and is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules) and amendments made thereto, the Interim dividend declared during the financial year 2016-17 which remained unclaimed for seven years and corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years has been transferred to the IEPF. The details of such unclaimed dividend and shareholders are uploaded on the website of the Company at https://www.nbccindia.com/webEnglish/IEPFTransfer.

The shareholders whose shares has been transferred to the IEPF Authority can claim from IEPF Authority unclaimed dividend amount and the equity shares so transferred to IEPF by making an application in Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to the Company at its registered office i.e. Company Secretary, NBCC (India) Limited, NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi -110003 or to M/s Alankit Assignments Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company for verification of your claim. The Shareholders simultaneously with sending the physical copy of IEPF along with requisite documents may also send the same to the Company at investor.agm@nbccindia.com or to RTA at rta@alankit.com. For your information, the procedure and forms are available on the website of the Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in.

Depository Participants to update Address/Bank Details/NECS/ECS mandate, if any and Shareholders holding shares in Physical form may update their bank details by submitting hard copy of duly signed Form ISR-1 along with relevant documents mentioned therein to RTA. The said form is available at :

For NBCC (India) Limited

Place: New Delhi Date: May 31, 2024

Deepti Gambhir Company Secretary

PARTAP INDUSTRIES LIMITED

Read. Office: Vill Beopror, G.T. Raod, Near Shambhu Barrier. Distt. Patiala, Punjab-140417, INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614, Email: partaplisting2017@gmail.com EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

(INR in Lacs except per share data)

2011		1		STHUMBURE		
SL. NO.	PARTICULARS	For the Quarter Ended For the Year I				ar Ended
79.		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from operations	8922.46	7007.22	7713.24	28495.77	38809.94
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	486.08	59,45	(1,821.86)	453.69	2,782,63
3	Total Comprehensive Income for the period	2,955.34	(120.80)	(1,647,77)	2,382.20	2,176.7
4	Paid-up Equity Share Capital (32.02,350 Equity Shares of INR 10/- each)	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation					
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51,46)	74.39	67.97
	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97
_	() () () () () () () () () ()	1		NR in Lacs e		hare data)
SIS	PARTICULARS	For	the Quarter E	CONSOLIDATED	97 	ar Ended
90.	FARTICOLARS	FOE	ine quarter ci	liuca	rut the re	ar cinden

4 /	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		0.0000000	200000	35305	
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation					
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51,46)	74.39	67.97
	(2) Diluted	92.29	(3,77)	(51,46)	74.39	67.97
	Vicional Control Contr		(1	NR in Lacs	except per s	hare data)
	0.0000000000000000000000000000000000000			CONSOLIDATE	D	
NO.	PARTICULARS	-	the Quarter E	Profession and Profes		ar Ended
			31.12.2023			31.03.2023
:1	Total Income from operations	7,959.17	10,126.16	8,846.17	37,984.48	44,207.63
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	105.57	(376.37)	(2,215.39)	(631.98)	2,091.78
3	Total Comprehensive Income for the period	2,585.45	(556.62)	(2,008.81)	1,307.15	1,518.36
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/- each)	40.02	40.02	40.02	40.02	40.02
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation					
	(1) Basic	64.60	(13.91)	(50.19)	32.66	37,94

(2) Diluted

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msei.com and on the Company's website at www.partapdenim.com

Date: 30.05.2024 Place: Kolhapur

Sudarshan Paul Bansal Chairman & Managing Director

32.66

MIS MISH DESIGNS LIMITED

CIN: U74999MH2017PLC302175 Reg Off: Gala No. 4, Gulati Industries, Hattibaug Love Lane, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra, India, 400010 Website: www.mishindia.com | Email: info@mishindia.com

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Members of the Mish Designs Limited will be held on Friday, June 21, 2024 at 3:00 P.M. at the Registered Office of the Company at Gala No. 4, Gulati Industries, Hattibaug Love Lane, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra, India, 400010 to transact the business specified

No.	Description of the Resolution
1	To increase the authorised share capital of the company and consequent amendment to memorandum of association of the company
2	To approve issue of equity shares on preferential basis
3	To approve the issue of warrants convertible into equity shares on preferential basis

electronic form to the Email-IDs registered with their Depository Participants (in case of electronic shareholding)/the company's Registrar and share transfer Agent (in case of physical shareholding). For members whose Email IDs are not registered, we request shareholders to update their email ids with the depositories/ RTA as soon as possible. The Notice may also be accessed on the website of the company at www.mishindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') www.evotingindia.com.

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013

read with the rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Company has offered remote e-voting facility for transacting the business through Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') to enable the members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the company with CDSL to facilitate e-voting. The details pursuant to the act are as under: The e-voting period will commence on Monday, June 17, 2024 (9:00 A.M.) and ends on Thursday, June 20, 2024 (5:00 P.M.). Thereafter, the e-voting

- The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-
- up capital of the Company as on the cut-off date Friday, June 14, 2024. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may write to CDSL on the e-mail ID i.e.
- helpdesk.evoting@cdslindia.com requesting for the User ID and password. If the member is already registered with CDSL for e-voting, the member can use the existing User ID and Password for casting their vote through Remote e-voting. The detailed procedure pertaining to the User ID and Password is also provided in the Notice of the EOGM. For more information, kindly refer Notice of the meeting available on the

company's website and CDSL. FOR MISH DESIGNS LIMITED

> KAUSHAL MAHESH GOENKA (CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR)

Place: Navi Mumbai DIN: 02446587 Date: 30/05/2024

Oswal Minerals Limited

Regd. Office: #8/11, Police Station Road, Pallavaram, Chennai-600043 CIN: L30006TN1996PLC035973

E-Mail: info@oswalminerals.com; Website: www.oswalminerals.com Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended

31st March, 2024 (₹ in Crores except EPS) Quarter Ended Year Ender Particulars: 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 Audited Audited Total Income from Operations (Net) 685.13 407.02 1907.28 2 Net Profit from Ordinary Activities before Tax. 17.72 (54.81)Exceptional and / or Extraordinary items 3 Net Profit for the period after Tax, Exceptional (54.76)(0.92)13.24 and or Extraordinary items Paid-up Equity Share Capital 7.55 7.55 7.55

Face value of ₹ 10/- each).

Basic and diluted EPS before Extraordinary items

Basic and diluted EPS after Extraordinary items

Earnings Per Share (EPS)

(not annualized)

(not annualized)

Place: Bangalore

Place: Kolkata

Date: 30/05/2024

Date: 30th May, 2024

The above Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2024 have been reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 30th May, 2024. The above Financial results for the year ended 31st March, 2024 have been audited by the Statutory Auditors. An unmodified

(1.22)

 $\{1.22\}$

report has been issued by them thereon The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the Stock Exchange website

(www.msei.in/index.aspx) and on the Company's website (www.oswalminerals.com) FOR AND ON BEHALF OF BOARD

17.54

FRIDAY, MAY 31, 2024

29

(72.53)

(72.53)

SRIPAL KUMAR MOHANLAL MANAGING DIRECTOR

SYMBIOX INVESTMENT & TRADING CO. LTD CIN:L65993WB1979PLC032012

Regd. Off.: 221, RABINDRA SARANI, 3RD FLOOR, ROOM NO-1, KOLKATA-700007 Email ID. symvioxinvestment100@gmail.com; www. symbioxinvestment.com; Contact No. 033-3251-5833 STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024 Rupees in Lakhs

		QUARTER	ENDED	YEAR ENDED		
SL	PARTICULARS	31-Mar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23	
No.	1	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)	
1	Revenue					
	Total Income	114.84	(13.04)	412.79	399.88	
2	Expenses		` ′			
	Total expenses	121.94	56.55	388.04	378.33	
3	Profit before Exceptional Items and Tax (1 - 2)	(7.10)	(69.59)	24.75	21.55	
4	Exceptional Items	-	` - ′	-	-	
5	Profit Before Tax (3 - 4)	(7.10)	(69.59)	24.75	21.55	
6	Tax Expense	4.35	18.06	3.93	5.64	
7	Profit for the year (5-6)	(2.75)	(87.65)	20.82	15.91	
8	Other Comprehensive Income (net of tax)					
9	Total Comprehensive Income for the year	(2.75)	(87.65)	20.82	15.91	
10	Paid-up equity share capital					
	(Face Value of the Share Rs.10/- each)	3,12,87,330	3,12,87,330	3,12,87,330	3,12,87,330	
11	Earnings per share (of Rs. 10/- each):					
	(a) Basic	(0.009)	(0.280)	0.670	0.051	
	(b) Diluted	(0.009)	(0.280)	0.670	0.051	

The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended 31st March, 2024, Financial Results filed with the Stock Exchange (website. www.bseindia.com) under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

For Symbiox Investment & Trading Company Limited

SAMIT RAY

Managing Director DIN No. 08406285

IRIS Business Services Limited Registered Office: T-231, Tower 2, 3rd Floor, IRIS International Infotech Park, Vashi - 400 703, Maharashtra, India. Tel: +91 22 67231000, Email: cs@irisbusiness.com,

Website: www.irisbusiness.com, Fax: +91 22 2781 4434

CIN: L72900MH2000PLC128943

NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VIDEO MEANS AND INFORMATION ON E-FACILITY

NOTICE is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting 'EGM' or 'Meeting') of the Members of IRIS Business Services Limited (the 'Company') will be held on Friday, June 21, 2024, at 11:00 a.m. I.S.T.) through Video Conference (VC') / Other Audio-Visual Means "OAVM"), to transact the Special businesses as set out in the Notice of the EGM dated May 30, 2024. In accordance with the General Circulars ssued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') including General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 ssued by Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively referred as 'Circulars'), the Company has sent the Notice of the EGM on May 30, 2024, through electronic mode, to those Members whose e-mail addresses are egistered with the Company or Registrar & Transfer Agent ('RTA') and Depositories as on Friday, May 24, 2024.

Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule, 2014, as amended, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before the EGM and e-voting during the EGM in respect of the businesses to be transacted at the EGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating the voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the EGM.

The details pursuant to provisions of the Act and the Rules framed thereunder are given below: a. All business items as set out in the Notice of EGM may be

- transacted by electronic means. Date and time of commencement of remote e-Voting facility -
- Tuesday, June 18, 2024 at 09:00 A.M. (IST) c. Date and time of end of remote e-voting facility - Thursday,
- June 20, 2024 at 05:00 P.M. (IST) d. Members may note that: (I) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL on
 - Thursday, June 20, 2024 at 05:00 P.M. (IST) and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
 - Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time: (iii) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the

Company as on Friday, June 14, 2024 ('Cut-off Date').

- (iv) The facility of remote e-voting system shall also be made available during the meeting and the Members attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-voting before the EGM shall be able to exercise their right during the Meeting:
- A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/during the EGM. (vi) Members who have cast their vote by remote e-Voting, prior
- to the Meeting may also attend the Meeting electronically. but shall not be entitled to vote again. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending Notice and holding
- shares as of Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL/CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting The detailed instructions for joining the EGM through VC/OAVM and casting the vote through remote e-voting/e-voting at the
- EGM is provided in the Notice of EGM. Members are requested to carefully go through the same. Members who need assistance before or during the EGM regarding e-voting facility and/or VC/OAVM facility, can send a request at evoting@nsdl.com Name: Ms. Pallavi Mhatre Designation: Senior Manager

Address: National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg,

Lower Parel (West), Mumbai - 400 013. Phone No.: 022 - 4886 7000 / 022 - 2499 7000

or Mr. Santoshkumar Sharma, Company Secretary and

communications by e-mail from the Company in future.

Compliance Officer of the Company or via email on cs@irisbusiness.com or at the Registered office address of the Company at T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi - 400703. The Board of Directors have appointed Mr. Rishit D. Shah (Mem. No.

FCS 9522; C.O.P. No. 26870), of M/s. Rishit Shah & Co., Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting voting process in fair and transparent manner.

Members are requested to register/update their e-mail addresses with their DPs in case shares held in dematerialised form and to Company/ RTA in case shares held in physical form for receiving all the

> By Order of Board of Directors For IRIS Business Services Limited

Santoshkumar Sharma

Company Secretary & Compliance Officer Membership No. ACS 35139

Chandigarh

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

Date: May 29, 2024

Website: www.tatamotors.com CIN - L28920MH1945PLC004520 NOTICE OF THE 79TH ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting ('AGM') 'Meeting') of Tata Motors Limited ('the Company') will be held on Monday, June 24, 2024 at 2:30 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, read

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') Circular Nos. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/ CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, respectively issued by Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars') along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this regard, the Company has sent the Notice convening the 79th AGM through electronic mode on Thursday, May 30, 2024 to Members whose email addresses are registered with the Company/ National Securities Depository Limited ('NSDL') and Central Depositories Services (India) Limited ('CDSL') (collectively referred to as 'Depositories'/'DPs')/ Registrar & Transfer Agent

TATA

TATA MOTORS LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400001.

Tel: +91 22 6665 8282 Email: inv rel@tatamotors.com

with the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') General Circular Nos. 14/2020

dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5,

2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and relevant circulars issued

subsequently in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25,

2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars').

('Registrar'/'RTA').

End of e-Voting

Report for the Financial Year 2023-24 (the 'Integrated Annual Report') of the Company is available on the website of the Company at https://www. tatamotors.com/annual-reports/. Additionally, it can also be accessed on the websites of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges, viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The Company shall send a physical copy of the Integrated Annual Report to those Members who request for the same at inv_rel@tatamotors.com mentioning their Folio no./DP ID and Client ID. Members may attend and participate in the AGM only through VC/OAVM

The Notice of the AGM of the Company along with the Integrated Annual

facility, as indicated in the Notice of the AGM. Please note that there will be no provision for attending and participating in person at the AGM of the Company.

Instruction for remote e-Voting before and during the AGM: Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, each as amended, the MCA Circulars and other applicables laws, the Company is providing the facility of remote e-Voting prior to the AGM and remote e-Voting during the AGM to enable its Members to cast their vote by electronic means for the the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL to facilitate voting through electronic means. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as of the cut-off date, i.e., Monday, June 17, 2024 ('cut-off date') shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting provided by NSDL, either prior to the AGM or The remote e-Voting facility prior to the AGM would be available during the

following period: Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Thursday, June 20, 2024

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The facility of e-Voting will be made available during the Meeting and the Members attending the AGM, who have not cast their votes prior to the Meeting, will be eligible to cast their votes through e-Voting during the AGM. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not

June 23, 2024

Upto 5.00 p.m. (IST) on Sunday,

be allowed to change it subsequently. The voting rights of the Ordinary Shareholders shall be in the same proportion to the paid-up ordinary share capital and in case of voting rights on the 'A' Ordinary Shares, the shareholder shall be entitled to one vote for every ten 'A' Ordinary Shares held.

Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior

to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again at the AGM. Registration of e-mail address with the Company/DP and obtaining User ID and Password for e-Voting

Members holding shares in physical mode and who have not updated their email addresses with the Company are requested to update the same by writing to the RTA at csg-unit@linkintime.co.in. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register/update their email addresses with their respective DPs. Alternatively, the Members may register their email addresses with Link Intime India Private Limited (erstwhile TSR Consultants Private Limited, merged with Link Intime India Private Limited w.e.f. December 22, 2023), the RTA of the Company, in order to receive the Integrated Annual Report by visiting the link https://liiplweb.linkintime. co.in/EmailReg/Email_Register.html on or before 5:00 p.m. IST on Monday, June 10, 2024. The detailed process for registering of email addresses will be provided in the Notice convening the AGM.

Any person holding shares in physical form and non-individual Members, who acquire shares of the Company and become Members of the Company after despatch of Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, June 17, 2024, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or the Company/RTA. However, if the Member is already registered with NSDL for remote e-Voting, then they can use their existing user ID and password for casting their vote. If member has forgotten their password, they can reset their password by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password" options available on www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000. In case of Individual Shareholders holding securities in Demat mode who acquire shares of the Company and becomes Members of the Company after despatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, June 17, 2024, may follow steps mentioned in the note to Notice under 'Access to NSDL

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions for Members and e-Voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request to Mr Sanjeev Yadav, Assistant Manager- NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL are as given below:

Login type Helpdesk details Individual Members holding | Members facing any technical issue in login securities in demat mode can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at with NSDL 022 - 4886 7000 Individual Members holding Members facing any technical issue in login securities in demat mode can contact CDSL helpdesk by sending a with CDSL request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 22 55 33

Comprehensive guidance on (a) remote e-Voting before the AGM, (b)

participation in and joining of the AGM through VC/OAVM. (c) e-Voting

during the AGM and (d) registration of email IDs, are available in the Notice

of the AGM, which can be accessed and downloaded on the Company's website at: https://www.tatamotors.com/annual-reports/ The Board of Directors has appointed Mr. P N Parikh (Membership No. FCS 327) and failing him; Ms. Jigyasa Ved (Membership No. FCS 6488) and failing her; Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331) of M/s Parikh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize

the remote e-Voting process as well as for e-Voting during the AGM, in a fair

and transparent manner.

Place: Mumbai

Date: May 30, 2024

The results of the remote e-Voting and e-Voting during the AGM shall be declared within two working days from the conclusion of the AGM. The results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website at www.tatamotors.com and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration and communicated to the Stock Exchanges where the Company's Shares are listed viz. BSE and NSE and be made available on their respective websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

> **Maloy Kumar Gupta Company Secretary**

For Tata Motors Limited

"IMPORTANT"

Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Shareholders holding shares in Demat form may contact the respective https://www.nbccindia.in/webEnglish/InvestorServiceRequest.

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

For Partap Industries Limited

NOTICE

Puja Jain

TATA MOTORS LIMITED

Registered Office: Bombay House, 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400001.

Tel: +91 22 6665 8282 Email: inv rel@tatamotors.com

Website: www.tatamotors.com CIN - L28920MH1945PLC004520

NOTICE OF THE 79TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 79th Annual General Meeting ('AGM')

'Meeting') of Tata Motors Limited ('the Company') will be held on Monday,

June 24, 2024 at 2:30 p.m. (IST) through Video Conference ('VC') / Other

Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions

of the Companies Act, 2013 ('the Act') and Rules made thereunder, read

with the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') General Circular Nos. 14/2020

dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5,

2020, 10/2022 dated December 28, 2022 and relevant circulars issued

subsequently in this regard, the latest being 09/2023 dated September 25,

In accordance with the aforesaid MCA Circulars and Securities and Exchange

Board of India ('SEBI') Circular Nos. SEBI/HO/ CFD/CMD1/CIR/P/2020/79

dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15,

2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/

CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-

2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023, respectively issued by Securities

and Exchange Board of India (collectively referred to as 'SEBI Circulars')

along with any other applicable Circulars issued by MCA and/or SEBI in this

regard, the Company has sent the Notice convening the 79th AGM through

electronic mode on Thursday, May 30, 2024 to Members whose email

addresses are registered with the Company/ National Securities Depository

Limited ('NSDL') and Central Depositories Services (India) Limited ('CDSL')

(collectively referred to as 'Depositories'/'DPs')/ Registrar & Transfer Agent

The Notice of the AGM of the Company along with the Integrated Annual

Report for the Financial Year 2023-24 (the 'Integrated Annual Report') of

the Company is available on the website of the Company at https://www.

tatamotors.com/annual-reports/. Additionally, it can also be accessed on the

websites of NSDL at www.evoting.nsdl.com and the Stock Exchanges, viz., BSE

Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com

and www.nseindia.com, respectively. The Company shall send a physical copy

of the Integrated Annual Report to those Members who request for the same

Members may attend and participate in the AGM only through VC/OAVM

facility, as indicated in the Notice of the AGM. Please note that there will

be no provision for attending and participating in person at the AGM of

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), the

Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company

Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, each as amended, the MCA

Circulars and other applicables laws, the Company is providing the facility

of remote e-Voting prior to the AGM and remote e-Voting during the AGM

to enable its Members to cast their vote by electronic means for the the

business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has

A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of

Beneficial Owners maintained by the Depositories as of the cut-off date,

i.e., Monday, June 17, 2024 ('cut-off date') shall only be entitled to avail the

facility of remote e-Voting provided by NSDL, either prior to the AGM or

The remote e-Voting facility prior to the AGM would be available during the

Commencement of e-Voting From 9.00 a.m. (IST) on Thursday,

The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

The facility of e-Voting will be made available during the Meeting and the

Members attending the AGM, who have not cast their votes prior to the

Meeting, will be eligible to cast their votes through e-Voting during the AGM.

Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not

The voting rights of the Ordinary Shareholders shall be in the same proportion

to the paid-up ordinary share capital and in case of voting rights on the 'A'

Ordinary Shares, the shareholder shall be entitled to one vote for every ten

Members who have cast their vote on resolution(s) by remote e-Voting prior

to the AGM may attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall

Registration of e-mail address with the Company/DP and obtaining User ID

Members holding shares in physical mode and who have not updated their

email addresses with the Company are requested to update the same by

writing to the RTA at csg-unit@linkintime.co.in. Members holding shares

in dematerialized mode are requested to register/update their email

addresses with their respective DPs. Alternatively, the Members may register

their email addresses with Link Intime India Private Limited (erstwhile TSR

Consultants Private Limited, merged with Link Intime India Private Limited

w.e.f. December 22, 2023), the RTA of the Company, in order to receive the

Integrated Annual Report by visiting the link https://liiplweb.linkintime.

co.in/EmailReg/Email Register.html on or before 5:00 p.m. IST on Monday,

June 10, 2024. The detailed process for registering of email addresses will be

Any person holding shares in physical form and non-individual Members,

who acquire shares of the Company and become Members of the Company

after despatch of Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, June 17, 2024, may obtain the login ID and password by sending a

request at evoting@nsdl.co.in or the Company/RTA. However, if the Member

is already registered with NSDL for remote e-Voting, then they can use their

existing user ID and password for casting their vote. If member has forgotten

their password, they can reset their password by using "Forgot User

Details/Password" or "Physical User Reset Password" options available on

www.evoting.nsdl.com or call on 022-4886 7000. In case of Individual

Shareholders holding securities in Demat mode who acquire shares of the

Company and becomes Members of the Company after despatch of the

Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday, June 17, 2024,

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions for

Members and e-Voting user manual for Members available at the download

section of www.evoting.nsdl.com or call on: 022 - 4886 7000 or send a request

Helpdesk for Individual Members holding securities in demat mode for any

technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL are

Individual Members holding | Members facing any technical issue in login

securities in demat mode can contact NSDL helpdesk by sending a

Individual Members holding | Members facing any technical issue in login

securities in demat mode can contact CDSL helpdesk by sending a

Comprehensive guidance on (a) remote e-Voting before the AGM, (b)

participation in and joining of the AGM through VC/OAVM. (c) e-Voting

during the AGM and (d) registration of email IDs, are available in the Notice

of the AGM, which can be accessed and downloaded on the Company's

The Board of Directors has appointed Mr. P N Parikh (Membership No. FCS

327) and failing him; Ms. Jigyasa Ved (Membership No. FCS 6488) and failing

her; Mr. Mitesh Dhabliwala (Membership No. FCS 8331) of M/s Parikh &

Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize

the remote e-Voting process as well as for e-Voting during the AGM, in a fair

The results of the remote e-Voting and e-Voting during the AGM shall be

declared within two working days from the conclusion of the AGM. The

results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on

the Company's website at www.tatamotors.com and on the website of

NSDL at www.evoting.nsdl.com immediately after their declaration and

communicated to the Stock Exchanges where the Company's Shares are

listed viz. BSE and NSE and be made available on their respective websites at

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

individuals advertising in its newspapers or Publications.

We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement in any manner

website at: https://www.tatamotors.com/annual-reports/

022 - 4886 7000

Helpdesk details

request at evoting@nsdl.com or call at

request at helpdesk.evoting@cdslindia.com

For Tata Motors Limited

Maloy Kumar Gupta

Company Secretary

or contact at toll free no. 1800 22 55 33

to Mr Sanjeev Yadav, Assistant Manager- NSDL at evoting@nsdl.co.in.

may follow steps mentioned in the note to Notice under 'Access to NSDL

not be entitled to cast their vote on such resolution(s) again at the AGM.

June 20, 2024

June 23, 2024

Upto 5.00 p.m. (IST) on Sunday,

Instruction for remote e-Voting before and during the AGM:

appointed NSDL to facilitate voting through electronic means.

at inv_rel@tatamotors.com mentioning their Folio no./DP ID and Client ID.

2023 (collectively referred to as 'MCA Circulars').

('Registrar'/'RTA').

the Company.

following period:

End of e-Voting

be allowed to change it subsequently.

'A' Ordinary Shares held.

and Password for e-Voting

e-Voting system'.

as given below:

Login type

with NSDL

with CDSL

and transparent manner.

Place: Mumbai

whatsoever.

Date: May 30, 2024

www.bseindia.com and www.nseindia.com.

provided in the Notice convening the AGM.

JULIEN AGRO INFRATECH LIMITED CIN: L28219WB1997PLC083457 REGISTERED OFFICE: Yashoda Chamber, 85 Bentick Street, 5th Floor, Room No. 6, Lalbazar, Kolkata-700001

1. The above is an extract of the detailed format for the year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and othe Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format is also available on the websites of the Stock Exchange(s).

For Julien Agro Infratech Limited Place : Kolkata Date: May 30, 2024 (Company Secretary)

CIN: L72200TG1996PLC023823 Regd. Office: Plot No. 111, Road No.10, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033.

SAGARSOFT (INDIA) LIMITED

Phone: 040 67191000 Fax: 040 23114607. Website: www.sagarsoft.in email: info@sagarsoft.in **Notice to Members**

Service of Documents through Electronic mode The Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circular no. 14/2020 dated 08.04.2020, 17/2020 date

13.04.2020, 20/2020 dated 05.05.2020, 28/2020 dated 17.08.2020, 02/2021 dated 13.01.2021, 19/202 dated 08.12.2021, 21/2021 dated 14.12.2021, 02/2022 dated 05.05.2022, 10/2022 dated 28.12.2022 an 09/2023 dated 25:09:2023 has allowed the companies to conduct their Annual General Meetings (AGM through Video-conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") on or before 30" September, 202and send financial statements (including Board's Report, Auditor's Report or other documents required to b attached therewith) and notices of General Meetings to the members only through e-mails registered with the company or with the depository participant/depository, Further SEBI vide circular No SEBI/HO/CFD/CMD/1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 date anuary 15, 2021, SEBUHO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBUHO/CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07 2023 has also relaxed the requirement of furnishing hard copy of Annual Reports to the Members. The Company shall accordingly be sending all notices and documents like General Meeting Notices (including

addresses as furnished by them in the manner prescribed under the Companies Act, 2013, SEBI (Listin Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the relevant rules and circulars applicable In view of the above, Members are requested to register their e-mail addresses, Mobile No(s) or if any changes

therein, and the PAN number in the following manner. Members with physical holding: A signed request letter mentioning your folio no. and the email id/Mobil

AGM), Financial Statements, Directors' Report, Auditors Report, Postal Ballot papers and other

communications as may be applicable to the members through electronic mode at the designated email

No/PAN (Self attested copy) that is to be registered (scanned copy of the signed request letter) may be sent to the company's e-mail id at into@sagarsoft.in and / or to the company's registrar and transfer agents, M/s. KFin Technologies Limited email id: einward.ris@kfintech.com. Members with Demat Holding: Register/Update through respective Depository Participants (DPs) (Any such

updation effected by the DPs will automatically reflect in the company subsequent Records). For and on behalf of Sagarsoft (India) Limited

T. Sri Sai Manasa

Place: Hyderabad Date : 30" May, 2024

Place: Mumbai

Dated: 29.05.2024

Company Secretary Membership No. A61433

SWOJAS ENERGY FOODS LIMITED Registered Office: 6L, 10 Floor, 3, Navjeevan Society, Dr. Dadasaheb Bhadkamkar

Marg, Mumbai Central, Mumbai - 400008 CIN: L15201MH1993PLC358584 **Extract of Standalone Financial Results for** the Quarter ended 31st March, 2024 (Figures are in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Current Quarter ending	Year to Date	Corresponding 3 months ended in the
Ш				previous year
		31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-23
1	Total Income from Operations	25.94	39.70	5.79
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,			
Ш	Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.39	6.17	-5.04
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax			
Ш	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1.39	6.17	-5.04
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax			
ш	(after Exceptional and/or Extraordinary items#)	0.51	4.38	-3.27
5	Total Comprehensive Income for the period			
ш	[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax)			9
ш	and Other Comprehensive Income (after tax)]	0.51	4.38	-3.27
6	Equity Share Capital	3096.27	3096.27	3096.27
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown		0741.45	
ш	in the Audited Balance Sheet of the previous year		-2741.45	
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)			
	(for continuing and discontinued operations) -			
	1) Basic:	0.00	0.01	-0.01

The above results were reviewed by the Audit Committee and thereafter taken on record by the Board in it meeting held on 29th May, 2024 and also Audit Report were carried out by the Statutory Auditors.

a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company' Website i.e (www.sefl.co.in) and on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com)

For Swojas Energy Foods Limited Vishal Dedhia **Director - DIN No.: 00728370**

-0.01



ADF FOODS LIMITED CIN: L15400GJ1990PLC014265 Regd Office: 83/86, G.I.D.C Industrial Estate, Nadiad - 387 001, Gujarat

Tel No.: +91 268 2551381/82; Fax: +91 2682565068 Corp Off: Marathon Innova, B2, G01, Ground Floor, G. K. Road, Lower Parel, Mumbai-400 013. Tel No.: +91 22 61415555; Fax: +91 22 61415577; E-mail: co_secretary@adf-foods.com; Website: www.adf-foods.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS

TRANSFER OF THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY In terms of the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for a period of seven (7) consecutive years or more to the Demat Account of the IEPF The Final Dividend declared for the Financial Year 2016-17, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF Authority along with the corresponding shares on which dividends were unclaimed will also be transferred as per the procedure set out in the

individually to the concerned Shareholders at their registered address, inter-alia, providing the details of their unclaimed dividend for seven consecutive years and giving them an opportunity to claim the said unclaimed dividend latest by Tuesday, 10th September, 2024 to avoid transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority. The list of Shareholder(s) along with their Folio Number/ DP ID-Client ID whose shares are liable to be transferred to the Demat Account of IEPF Authority s available on website of the Company at www.adf-foods.com for information and necessary action by the Shareholder(s).

In compliance with the said Rules, the Company has communicated

In case no valid claim in respect of such equity shares is received from the Shareholders by 10th September, 2024 the said equity shares shall be transferred to the Demat Account of IEPF Authority as per the procedure stipulated under the IEPF Rules. In this connection, please note that:

For Shares held in physical form: New Share Certificate(s) will be

- issued and transferred subsequently to the Demat Account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new Share Certificate(s), the original Share Certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery. For Shares held in electronic form: The shares will be directly
- transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice. The concerned shareholders may note that upon transfer of such shares to

the IEPF Authority, no claim shall lie against the Company in respect of the

shares transferred to the IEPF Authority. Upon transfer to the Demat Account of the IEPF Authority, the Shareholders can claim the equity shares along with the dividend(s) from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed Form IEPF-5 and sending the physical copy of the requisite documents enumerated in the Form IEPF-5 to the Nodal Officer of the Company.

In case the shareholders have any queries or require any assistance on the subject matter, they may contact the Company's Registrar and Transfer Agents M/s, Link Intime India Private Limited, Unit: ADF Foods Limited, C 101, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel.: +91 81081 18484, Email: iepf.shares@linkintime.co.in.

Date: 31st May, 2024

Place: Mumbai

Shalaka Ovalekar

Company Secretary Membership No. A15274

For ADF Foods Limited



NBCC Navrama CPSE

NBCC (INDIA) LIMITED

(A Government of India Enterprise) Registered Office: NBCC Bhawan, Lodhi Road New Delhi-110003. (CIN:L74899DL1960GOI003335) Tel: 011-24367314-18, 43591555 (EPABX) Email: co.sectt@nbccindia.com, website: www.nbccindia.in

NOTICE

Transfer of unclaimed dividend and equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) with respect to FY 2016-17

Notice be and is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (Rules) and amendments made thereto, the Interim dividend declared during the financial year 2016-17 which remained unclaimed for seven years and corresponding shares on which dividends were unclaimed for seven consecutive years has been transferred to the IEPF. The details of such unclaimed dividend and shareholders are uploaded on the website of the Company at https://www.nbccindia.com/webEnglish/IEPFTransfer.

The shareholders whose shares has been transferred to the IEPF Authority can claim from IEPF Authority unclaimed dividend amount and the equity shares so transferred to IEPF by making an application in Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to the Company at its registered office i.e. Company Secretary, NBCC (India) Limited, NBCC Bhawan, Lodhi Road, New Delhi -110003 or to M/s Alankit Assignments Limited, Registrar and Transfer Agents of the Company for verification of your claim. The Shareholders simultaneously with sending the physical copy of IEPF along with requisite documents may also send the same to the Company at investor.agm@nbccindia.com or to RTA at rta@alankit.com. For your information, the procedure and forms are available on the website of the Ministry of Corporate Affairs at www.iepf.gov.in.

Shareholders holding shares in Demat form may contact the respective Depository Participants to update Address/Bank Details/NECS/ECS mandate, if any and Shareholders holding shares in Physical form may update their bank details by submitting hard copy of duly signed Form ISR-1 along with relevant documents mentioned therein to RTA.

For NBCC (India) Limited

Place: New Delhi Date: May 31, 2024

Deepti Gambhir Company Secretary

(INR in Lacs except per share data)

Sd/-

PARTAP INDUSTRIES LIMITED

Distt. Patiala, Punjab-140417, INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614, Email: partaplisting2017@gmail.com EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

For the Year Ended PARTICULARS For the Quarter Ended

	16-0 Van 170 Van	The State of the S	1017/00/04/45	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		500 LA P. 200 L.
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of					
	INR 10/- each)	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation					
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97
	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51,46)	74.39	67.97
			(1	NR in Lacs	except per s	hare data)
33				CONSOLIDATE	D	
IO.	PARTICULARS	-	the Quarter E	Printer of the Parket of the P	For the Yo	
			31.12.2023		manufacture distribution on Assign	31.03.2023
1	Total Income from operations	7,959.17	10,126.16	8,846.17	37,984.48	44,207.63
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	105.57	(376.37)	(2.215.39)	(631.98)	2,091.78
3	Total Comprehensive Income for the period	2,585.45	(556.62)	(2,008.81)	1,307.15	1,518.36
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/- each)	40.02	40.02	40.02	40.02	40.02
5	Earnings per equity (for Continuing operation) &	100/00/1000	1000000	CVX500000	0103767	723 0071

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msei.com and on the Company's website at www.partapdenim.com

> Sudarshan Paul Bansal Chairman & Managing Director

For Partap Industries Limited

MISH**MISH DESIGNS LIMITED**

Reg Off: Gala No. 4, Gulati Industries, Hattibaug Love Lane, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra, India, 400010 Website: www.mishindia.com | Email: info@mishindia.com

NOTICE

of the Mish Designs Limited will be held on Friday, June 21, 2024 at 3:00 P.M. at the Registered Office of the Company at Gala No. 4, Gulati Industries, Hattibaug Love Lane, Mazgaon, Mumbai, Maharashtra, India, 400010 to transact the business specified

Item Description of the Resolution No. To increase the authorised share capital of the company and consequent amendment to memorandum of association of the company To approve issue of equity shares on preferential basis To approve the issue of warrants convertible into equity shares on preferential basis

electronic form to the Email-IDs registered with their Depository Participants (in case of electronic shareholding)/the company's Registrar and share transfer Agent (in case of physical shareholding). For members whose Email IDs are not registered, we request shareholders to update their email ids with the depositories/ RTA as soon as possible. The Notice may also be accessed on the website of the company at www.mishindia.com and website of Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') www.evotingindia.com. REMOTE E-VOTING:

has offered remote e-voting facility for transacting the business through Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') to enable the members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the company with CDSL to facilitate e-voting. The details pursuant to the act are as under: The e-voting period will commence on Monday, June 17, 2024 (9:00 A.M.) and ends on Thursday, June 20, 2024 (5:00 P.M.). Thereafter, the e-voting

- The voting rights of Members shall be in proportion to their share of paid-
- Any person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice
- helpdesk,evoting@cdslindia.com requesting for the User ID and password. If the member is already registered with CDSL for e-voting, the member can use the existing User ID and Password for casting their vote through Remote e-voting. The detailed procedure pertaining to the User ID and Password is also provided in the Notice of the EOGM. For more information, kindly refer Notice of the meeting available on the

company's website and CDSL.

Sd/-KAUSHAL MAHESH GOENKA

Oswal Minerals Limited

Regd. Office: #8/11, Police Station Road, Pallavaram, Chennai-600043 CIN: L30006TN1996PLC035973

E-Mail: info@oswalminerals.com; Website; www.oswalminerals.com Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended

Quarter Ended Year Ender **Particulars** 31.03.2024 | 31.03.2023 | 31.03.2024 Audited Audited Total Income from Operations(Net) 407.02 685.13 1907,28 Net Profit from Ordinary Activities before Tax. 17.72 $\{0.97\}$ (54.81)Exceptional and / or Extraordinary items 3 Net Profit for the period after Tax, Exceptional 13.24 (54.76)(0.92)and / or Extraordinary items Paid-up Equity Share Capital 7.55 7.55 7:55 Face value of ₹ 10/- each). Earnings Per Share (EPS) Basic and diluted EPS before Extraordinary items $\{1.22\}$ 17.54 (72.53)

31st March, 2024

for the year ended 31st March, 2024 have been audited by the Statutory Auditors. An unmodified The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock

17.54

FRIDAY, MAY 31, 2024

(in Crores except EPS)

(72.53)

Rupees in Lakhs

YEAR ENDED

exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure requirements) Regulations, 2015. The full format of the results are available on the Stock Exchange website (www.msei.in/index.aspx) and on the Company's website (www.oswalminerals.com) FOR AND ON BEHALF OF BOARD

The above Audited Financial Results for the Quarter and year ended 31st March, 2024 have been

reviewed by the Audit Committee at its meeting held on 30th May, 2024. The above Financial results

SRIPAL KUMAR MOHANLAL MANAGING DIRECTOR DIN: 01000236

(1.22)

SYMBIOX INVESTMENT & TRADING CO. LTD

not annualized)

(not annualized)

Place: Bangalore

Place: Kolkata

Date: 30/05/2024

Date: 30th May, 2024

Basic and diluted EPS after Extraordinary items

report has been issued by them thereon.

CIN:L65993WB1979PLC032012 Regd. Off.: 221, RABINDRA SARANI, 3RD FLOOR, ROOM NO-1, KOLKATA-700007 Email ID. symvioxinvestment100@gmail.com; www. symbioxinvestment.com;

QUARTER ENDED

Contact No. 033-3251-5833 STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

PARTICULARS 31-Mar-24 31-Mar-23 31-Mar-24 31-Mar-23 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Revenue 114.84 (13.04)412.79 399.88 **Total Income** Expenses 121.94 56.55 388.04 378.33 Total expenses Profit before Exceptional Items and Tax (1 - 2) (7.10)(69.59)24.75 21.55 Exceptional Items (69.59)24.75 21.55 Profit Before Tax (3 - 4) (7.10)Tax Expense 4.35 18.06 3.93 5.64 20.82 15.91 Profit for the year (5-6) (2.75)(87.65)Other Comprehensive Income (net of tax) Total Comprehensive Income for the year (2.75)(87.65)20.82 15.91 10 Paid-up equity share capital 3,12,87,330 ,12,87,330 3,12,87,330 3,12,87,330 (Face Value of the Share Rs.10/- each) 11 Earnings per share (of Rs. 10/- each): 0.670 0.051 (a) Basic (0.009)(0.280)(0.280)0.051 (b) Diluted (0.009)0.670

The above is an extract of the detailed format of Quarter and year ended 31st March, 2024, Financial Results filed with the Stock Exchange (website, www.bseindia.com) under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. For Symbiox Investment & Trading Company Limited

SAMIT RAY Managing Director

DIN No. 08406285

IRIS Business Services Limited Registered Office: T-231, Tower 2, 3rd Floor, IRIS Registered Office: 1-231, 10wer 2, 314 F1001, International Infotech Park, Vashi - 400 703, Maharashtra, India. Tel: +91 22 67231000, Email: cs@irisbusiness.com,

Website: www.irisbusiness.com, Fax: +91 22 2781 4434 CIN: L72900MH2000PLC128943 NOTICE OF THE EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING TO BE

HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO VIDEO MEANS AND INFORMATION ON E-FACILITY NOTICE is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting "EGM" or "Meeting") of the Members of IRIS Business Services Limited the 'Company') will be held on Friday, June 21, 2024, at 11:00 a.m.

Explanatory Statement of the EGM is available on the website of the Company at on the websites of the Stock Exchange(s) viz. BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evoting.nsdl.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rule,

2014, as amended, Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meeting ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before the EGM and e-voting during the EGM in respect of the businesses to be transacted at the EGM and for this purpose, the Company has appointed NSDL for facilitating the voting through electronic means. The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the EGM. The details pursuant to provisions of the Act and the Rules framed

thereunder are given below: a. All business items as set out in the Notice of EGM may be

- transacted by electronic means. Date and time of commencement of remote e-Voting facility
- Tuesday, June 18, 2024 at 09:00 A.M. (IST) Date and time of end of remote e-voting facility - Thursday,
- June 20, 2024 at 05:00 P.M. (IST) d. Members may note that:
- Thursday, June 20, 2024 at 05:00 P.M. (IST) and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
- Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time: (iii) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, June 14, 2024 ('Cut-off Date').

(iv) The facility of remote e-voting system shall also be made

(I) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL on

- available during the meeting and the Members attending the Meeting who have not already cast their vote by remote e-voting before the EGM shall be able to exercise their right during the Meeting: (v) A person whose name is recorded in the Register of
- Members / Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before/during the EGM. (vi) Members who have cast their vote by remote e-Voting, prior
- to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending Notice and holding
- shares as of Cut-off Date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.com. However, if he/she is already registered with NSDL/CDSL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting The detailed instructions for joining the EGM through VC/OAVM and casting the vote through remote e-voting/e-voting at the
- EGM is provided in the Notice of EGM. Members are requested to carefully go through the same. Members who need assistance before or during the EGM regarding e-voting facility and/or VC/OAVM facility, can send a request at evoting@nsdl.com Name: Ms. Pallavi Mhatre Designation: Senior Manager

Address: National Securities Depository Limited, Trade World,

'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400 013. Phone No.: 022 - 4886 7000 / 022 - 2499 7000 or Mr. Santoshkumar Sharma, Company Secretary and

Compliance Officer of the Company or via email on

cs@irisbusiness.com or at the Registered office address of the Company at T-231, Tower 2, 3rd Floor, International Infotech Park, Vashi Station, Vashi - 400703. The Board of Directors have appointed Mr. Rishit D. Shah (Mem. No. FCS 9522; C.O.P. No. 26870), of M/s. Rishit Shah & Co., Practicing

Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting voting process in fair and transparent manner. Members are requested to register/update their e-mail addresses with their DPs in case shares held in dematerialised form and to Company/ RTA in case shares held in physical form for receiving all the

> By Order of Board of Directors For IRIS Business Services Limited

Santoshkumar Sharma

Company Secretary & Compliance Officer

Place: Navi Mumbai Date: 30/05/2024

communications by e-mail from the Company in future.

Membership No. ACS 35139

New Delhi

The said form is available at: https://www.nbccindia.in/webEnglish/InvestorServiceRequest.

Regd. Office: Vill Beopror, G.T. Raod, Near Shambhu Barrier,

NO.		4.2.77%	The second secon	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023		
1	Total Income from operations	8922.46	7007.22	7713.24	28495.77	38809.94		
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	486.08	59.45	(1,821,86)	453.69	2,782.63		
3	Total Comprehensive Income for the period	2,955.34	(120.80)	(1,647,77)	2,382.20	2,176.71		
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each)	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02		
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation							
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97		
	(2) Diluted	92.29	(3,77)	(51.46)	74.39	67.97		
			(1	NR in Lacs o	xcept per s	hare data)		
825			- ()	CONSOLIDATED	D			
SL. VO.	PARTICULARS	For	the Quarter E	nded	For the Yo	ar Ended		
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023		
1	Total Income from operations	7 959 17	10.126.16	8.846.17	37.984.48	44 207 63		

Discontinued Operation 37.94 (1) Basic 32.66 64.60 (13.91)(50.19) (50.19) 32.66 37.94 (2) Diluted 64.60 (13.91)

Date: 30.05,2024 Place: Kolhapur

CIN: U74999MH2017PLC302175

NOTICE is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the Members

The Notice of EOGM along with Explanatory Statement is sent to Members in

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, The Company

up capital of the Company as on the cut-off date Friday, June 14, 2024. Once a vote is cast by the member, he/she shall not be allowed to change it

and holding shares as on cut-off date may write to CDSL on the e-mail ID i.e.

FOR MISH DESIGNS LIMITED

(CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR) DIN: 02446587

Date: May 29, 2024

In compliance with the provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the rules made there under and Regulation 44 of the SEBI (Listing

Place: Mumbai

financialexp.epapr.in

पंजी, कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, 🏟 pnb Housing फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, बेबसाइट : www.pnbhousing.com

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय 111 की धारा 13(2) के अधीन सूचना हम पैएनबै इन्होंने किनेटेंड (इसमें आगे 'पेएनबैएचएफएल' के रूप में वर्णित) ने क्तीय आरितयों का प्रतिभृतिकरण और प्नतिभीण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आगे 'अधिनियम के रूप में वर्णित) अध्याय 111 की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उन्हों मांग सूचना हमार प्राधिकत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदार / सह-कर्जदार / गारटेश को जारी की गई थी क्योंकि आपका खाता किश्तों / व्याप के अन्यति अपका स्वाप के अनुसार अन्यतिक अपका स्वाप के किया गया है। उन्होंसे विषयवस्त अधिक अपके द्वारा मुल्हान की किस्तों खाज इत्यापि के अनुसार अनुसार अनुसार कर्जिय के अपने के क्या पर क्या के अपने अपने के अ नहीं किए जान के कारण भारतीय रिजव बेक / राष्ट्रीय आवास बेक के दिशानिदेश के अनुसार अनाजक आरत के स्थ में वर्गाकृत किया गया है। वसका विश्वया साथ है। आगे. हमें कारणों के आधार पर विश्ववाहत हो के आप संविद्य है। बेक में से से से हमें हैं। आगे. हमें कारणों के आधार पर विश्ववाहत हो के साथ संविद्य हमें हैं। इसे लिए यह मांग सूचना प्रकाशन की लिय से कि जा रही हैं, जैसाकि उक्त अधिनेयम की आप 13(2) के अधीन अपित में हैं। एतदहारा आपसे उक्त राशि, अद्यात व्या अन्य राशियों सहित, जो भूगतान की लिया ते हैं। से अवधार के प्रवाद के अवधार के अवधार के अवधार के अवधार के अवधार करने की जाती है। जिसमें विफल रहन पर पीएनबीएचएफएस उक्त अधिनेयम की बारा 13(4) के प्रवधानों के अधीन के अधीन अधिनेयम की बारा 13(4) के प्रवधानों के अधीन के अधीन के अधिन के अधिन के से आवश्यक कार्यवाही वरेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारेटरों की प्रवधान के कब्जा प्राप्त की किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रवधानों के अधिन के अधिनयम 2002 की वार्य 13 की उप-धार (8) के प्रावधानों की आर आर्थित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप समूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएस द्वारा अधिन से से अधिन के से से अधिन के से अधिन के

研.	Company of the compan	उधारकर्ता और	ग्रांटर का	वंधक	मांग सूचना	मांग सूचना के
和.		सह-उधारकर्ता का नाम/पता	नाम और पता	सम्पत्ति	की तिथि	अनुसार बकाया रा
1.	005615, बी.आ जयानगर	श्री प्रिय रंजन सिंह पुत्र श्री राज नारायण सिंह, और श्री मनीष सिंह पुत्र श्री सिंह, पता: निवास स्थान: 302, रामाय्या एन्क्लेव, 8वां क्रॉस, दूसरा मेन, पाई लेआउट, वेंगलुरा–580016, और पलैट नंबर बी–9/8129, बसंत कुंज, नई दिल्ली, दिल्ली–110070, पलैट नंबर बीट ई0306, तीसरी मंजिल, पश्मीना बुकवुक्स, कम्मारांद्रा, विदसहल्ली होवली, केआर पुरम होवली,	NA .	अनुसूची "ए" संपत्ति (संयुक्त संपत्ति का विवरण) संपत्ति का यह पूरा टुकडा, जिस पर बिदराइल्ली पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नया खाता संख्या 48,49,50 और 51 है (पंचायत संख्या 24, 26 मुटास, पंचायत संख्या 23 / 1, 2 एकड़ 7 मुंटास, पंचायत संख्या 22 / 1 और 22 / 2, 4 एकड़, और पंचायत संख्या 22 / 3, 3 एकड़ 15 मुंटास, कुल मिलाकर 10 एकव 8 मुंटास) (लगभग 444312 वर्ग फीट) भूमि, जिसे कृषि से गैर-कृषि आवासीय उद्देश्य के लिए परिवर्तित किया गया है, कम्मासंद्रा गांव, बिदराइल्ली होबली, बंगलुरु पूर्व तालुका में स्थित है और पूर्व में सड़क, पश्चिम में सड़क संख्या 25, 26 और 27, उत्तर में सड़क संख्या 20 और 21, दक्षिण में बयाप्पनहल्ली गांव की सीमा से घिरा है। अनुसूची "बी" संपत्ति अनुसूची ए संपत्ति में 157 वर्ग फीट के बराबर अविभाजित हिस्सा, अधिकार और हित। अनुसूची "सी" संपत्ति (निर्माण किया जाने वाला अपार्टमेट) मंजिल 03 पर नंबर बीटइं0306 वाले पलैट का वह पूरा टुकड़ा जिसमें एक बेड़रूम, हॉल, रसोई है। पश्मीना बुकवुड़्स नामक इमारत में 525 वर्ग फीट के सुपर बिल्ट अप एरिया के साथ एक कवर्ड कार पार्क का	13,05,2024	13.05.2024 त रु. 15,85,614 / (रुपये पन्द्रह ला पिच्यासी हजार १ सी बॉदह मात्र

प्राधिकत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

धारा ३(२) के तहत

दो सौ सत्रह रूपये मात्र)

एनपीए दिनांकः 07.05.2024

दिनांकः 11.05.2024

09.05.2024 के अनुसार

₹. 43,57,782/-

(रु. तैंतालीस लाख सत्तावन

हजार सात सौ बायसी मात्र)

एनपीए दिनांकः 07.05.2024

दिनांकः 11.05.2024

09.05.2024 के अनुसार

₹. 6,48,945/-

(छह लाख अड़तालीस

हजार नौ सौ पैंतालीस रुपये

एनपीए दिनांक: 07.05.2024

SMFG Grihashakti

जी–5 ब्लॉक,सोनिया विहार,

लैन: 605438011123773 और

1 नरेश कुमार , 2 पवित्रा देवी

शास्त्री नगर गाजियाबाद-201002

पता : डी-198, महेंद्र एन्क्लेव,

1 रमेश चंद सैनी पुत्र, राम चंद्र

सैनी, 2 सविता सैनी पत्नी, रमेश

पता : ओरंग शाह पूर, गोलाबाद,

फजलपुर, बाला जी मंदिर के पास,

लैनः 610839211096656

दिल्ली—100018

5. दौलत राम

मेरठ—250002

111239511316289

पुराना मद्रास रोड, बॅगलुरु-562129.

स्थान : जयानगर, दिनांकित : 31-05-2024

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

निर्माण अनुसूची ए संपत्ति पर किया जाना है।

कॉर्पोरेट कार्यालय : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसपॉयर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400051 महाराष्ट्र पंजीकृत कार्यालय : मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई-600095

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) **(एसएमएफजी**

आईएचएफसीएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस के प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस (सुचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का कहा किया गया है। अधोहस्ताक्षरी यथोचित रूप से मानते हैं कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस (सुचनाओं) को प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा को चिपकाकर और प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग नोटिस (सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे दी गई है:

प्र' सं.	ऋण खाता संख्या आर उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम,संपत्ति धारकों नैसा भी मामला हो	प्रतिभूति संपत्ति/बंधक संपत्ति का विवरणः	धारा ३(२) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख और कुल बकाया
1.	लैनः 609139511183795 1. हितेश यादव 2. लता देवी 3. सुशीला देवी पताः 124, बीएसएनएल टावर के पास, जरही हरसरू (46), गुड़गांव— 22 505	वाका सिवाना, गढ़ी हरसरू उप—तहसील : हरसरू जिला गुरुग्राम हिरयाणा में स्थित प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, खेवट/खाता संख्या 304—306—307, एमयू संख्या 36, किला संख्या 2/2 (1—12), 3/1 (7—0), 6/1 (4—18), 6/2 (5—1) 8 (7—3), 9/1 (1—19), 26 (0—15), 4/2 (6—) ॄ 16), 7/1/1 (0—12), 7/2/1 (6—16), 14/2 (5—8) । प्लॉट की सीमाएं = पूर्व : अन्य की संपत्ति; =पश्चिम : अन्य की संपत्ति; = उत्तर : अन्य संपत्ति; =दक्षिण : 20 फीट चौड़ी सड़क,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु.10,93,929 / – (दस लाख तिरानबे हजार नौ सौ उनतीस रूपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
2	लैनः 609139211321494 एवं 109139511371782 1. रघु कटारिया 2. नीलम कटारिया पताः एच. नं. 95 और 96 यूजीएफ, फ्रंट साइड ब्लॉक-एल, मोहन गार्डन,उत्तम नगर दिल्ली-110059.	गांव नवादा और कॉलोनी, जिसे मोहन गार्डन के नाम से जाना जाता है के क्षेत्र, ब्लॉक—एल एक्सटेंशन उत्तम नगर नई दिल्ली—110059 में स्थित छत के अधिकार के बिना निर्मित ऊपरी भूतल (सामने की ओर),संपत्ति संख्या 95—ए और 96 पर निर्मित, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज यानि 66.88 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 382 में से, साझा अधिकार के साथ प्रवेश / गेट, सीढ़ी का उपयोग करने के अधिकार, साझा अधिकार के साथ स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार पार्किंग स्थान, भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार शामिल है इस प्रकार से धिरा हुआ है — पूर्वः सड़क 20 फीट; पश्चिमः संपत्ति संख्या 95—ए और 96 का भाग; उत्तरः प्लॉट सं. 97; =दक्षिणः प्लॉट सं. 94	दिनांकः 11.05.2024 10.05.2024 के अनुसार रु. 32,21,216/— (रुपये बत्तीस लाख इक्कीस हजार दो सौ सोलह मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
3.	लैनः 609139211487083 1. संजीव कुमार 2. मीना गुप्ता पताः सी–5 / 24, यूजीएफ, यमुना विहार दिल्ली —110053	गंव निम्मी विहार साईं रेजीडेंसी में स्थितः इलाहाबास परगना और तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर यूपी — 201 301 में फ्री होल्ड, 2" तल, रिहायशी एचआईजी फ्लैट नंबर 201 और 202 बाएं हाथ की ओर, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर खसरा नंबर 322, प्लॉट नंबर 101, ब्लॉक—बी पर निर्मित, चौहद्दी = पूर्वः अन्य संपत्ति; = पश्चिमः प्रवेश / सड़क 20 फीट; उत्तरः ज्योति की संपत्ति; दक्षिणः फ्लैट नंबर 203 और 204 और महेंद्र की संपत्ति।	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 35,53,401 / — (रुपये पैंतीस लाख तिरपन हजार चार सौ एक मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
4.	लैनः 609107210468609 1 . राजेश कुमार कश्यप 2. मंजू रानी पताः एच. नं. 176, गली नं. 8,	डीआईएफ, अंकुर विहार, लोनी गांव ,परगना और तहसील, जिला गाजियाबाद—201 102 में स्थित फ्लैट बियरिंग नंबर जीएफ—3 भूतल पर बिना छत के अधिकार के, दाहिने हाथ की पिछली तरफ "उक्त मंजिल" आवासीय प्लॉट नंबर एल पर बी—4/12, क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 14,98,217/— (चौदह लाख अट्टानवे हजार

उधारकर्ता(ओं) को एतद्दवारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें एवं इसके ऊपर उल्लिखितमांग राशि के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 **दिनों** के भीतर करें। उधारकर्ता यह नोट करें कि **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल, एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के प्रति एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ता (ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो एसएमएफजी आईएचएफसीएल, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) का कब्जा शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने और भुगतान की वसूली तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी आईएचएफसीएल को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को संलग्न और /या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएफजी आईएचएफसीएल को भी बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानुनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी आईएचएफसीएल को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल के लिए

भाग-4 है; दक्षिणः 22'5" / मंदिर।

स्वर्ण जयंती पुरम, गाजियाबाद-201 013 में स्थित आवासीय द्वितीय तल,

औरंगशाहपुर, गोलाबार (पुष्प विहार) मेरठ में स्थित आवासीय प्लॉट जो

प्लॉट नंबर 7 का भाग-5 है, जिसका माप 52 वर्ग गज या 47.55 वर्ग

मीटर है, जिसमें खसरा नंबर 396डी शामिल है। बिक्री विलेख के अनुसार

सीमाएं – पूर्वः 20'7" / प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 7 का भाग–6 है;

पश्चिमः 21'7' / रोड; = उत्तरः 22'5" / प्लॉट, जो प्लॉट नंबर ७ का

क्षेत्रफल 104 वर्ग मीटर, भूखंड संख्या डी-335 पर निर्मित,

उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है। उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को बेचने या पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य) कार्य) के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने या डीलिंग करने से प्रतिबंधित किया / रोका जाता है। और उपर्युक्त का गैर अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के

पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : गुरुग्राम हरियाणा / नई दिल्ली, जी.बी. नगर / गाजियाबाद / मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिनांक: 11.05.2024

हस्ता /- अधिकृत अधिकारी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com (a) pnb Housing नोएडा शाखाः— पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, डी–2, सेक्टर – 3, नोएडा (यूपी)–201301 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पिठत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरिनर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरिनर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप संब कुर्जदारों / सह-कुर्जदार / गार्टरों की जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता किश्तों / ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिदेशों के अनुसार अनाजंक आस्तित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्त आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चुकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसिलए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसािक उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपिक्षित भी है। एतदद्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतम ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विज्ञत सहित्यों का अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रयाभूत आस्तियों का प्रतिभृतिकरण आर पुनरिनर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के आमित्र किया जाता है, जिसके तहत अधीन आस्तयों का प्रतिभृतिकरण अर्था राशित होता प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की आर आमित्र किया जाता है, जिसके तहत अधीन आस्तयों का प्रतिभृतिकरण अर्था राशित द्वार वहन की गई सभी लागतों, प्रभार तथा व्या सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निवेदा आमंत्रण द्वारा गुरत समझौत द्वारा गुरने के किया जाति हो बिक्त की सुद्धान के प्रकार नहीं होंगे। आगे, द्वार वहन की सुद्धार नहीं होता के प्रवाद निक्त सार्वजन की सुद्धार प्रवाद प्रवाद निक्त

आप क्र.		द्वारा वहने की गई सभी लोगता, प्रमारा तथा व्यया साहत, की मुगत स्तयों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया ज त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों	का बिक्रा, पर ग्रांटर का	ट्टा या किसा अन्य प्रकार स अंतरण बंधक	करन क सबह मांग सूचना					
स.	खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	नाम और पता	सम्पत्ति	की तिथि	अनुसार बकाया राशि				
	0005152, बी.ओ. नोएडा	श्री दीपक रमानी और श्रीमती माया वाशु रमानी पता:1—23 सी /05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93 ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 पता:2—अपार्टमेंट नंबर—204,टॉवर नंबर—19, ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505. श्री दीपक रमानी पता:3—यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.	INA	अपार्टभेंट नंबर—204, टॉवर नंबर—19,ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505.		15.05.2024 तक रु.97,80,060.46 / — (रुपये सत्तानवे लाख अस्सी हजार साठ और छियालीस पैसा मात्र)				
2.	8438, ਫੀ ओ	श्री दीपक रमानी और श्री वाशु कन्हैयालाल चोइथ रमानी पता:1— 23 सी/05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93 ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. पता:2— 718, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 श्री दीपक रमानी पता:3—यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.		718, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301.		15.05.2024 तक रु.28,40,773.12 / — (रुपये अड्डाइस लाख चालीस हजार सात सौ तिहत्तर और बाहर पैसा मात्र)				
3.	0517/383 644, बी.ओ.	श्री दीपक रमानी और श्री वाशु कन्हैयालाल चोइथ रमानी पताः1— 23 सी/05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. पताः2— 719, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. श्री दीपक रमानी पताः3— यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.	NA NA	719, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301.		15.05.2024 रु.26,57,835.58/— (रुपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार आठ सी पैंतीस और अड्डावन पैसा मात्र)				
स्था	थान : दिल्ली∕एनसीआर, दिनांकित : 31-05-2024 प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड									

DIGISPICE

डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जेए-122, पहली मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला, नई दिल्ली - 110025 सीआईएन: L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011-41251965, ईमेलः complianceofficer@digispice.com; वेबसाइटः www.digispice.com

डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 एवं अन्य लागू. प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, एवं इसके अनुक्रम में अन्य परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023, एवं किसी अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, परिपत्र तथा दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुपालन में डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों के विचार हेत् निम्न उल्लिखित व्यवसाय(ओं) पर, डाक मतपत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से ('रिमोट ई-वोटिंग') संकल्पों का अनुमोदन कर पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है

मद संख्या	संकल्प	संकल्प का विवरण
1.	विशेष संकल्प	श्री वेंकटरामु जयंती (डीआईएन 08918442) को कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने एवं उन्हें देय पारिश्रमिक का अनुमोदन
2.	विशेष संकल्प	कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 186 के अंतर्गत निवेश करने, ऋण देने, गारंटी देने या प्रतिभूतियां प्रदान करने हेतु अनुमोदन
3.	विशेष संकल्प	अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण देने, ऋण के संबंध में गारंटी देने या प्रतिभूतियां प्रदान करने हेतु निर्देशक मंडल को प्राधिकरण का अनुमोदन
4.	साधारण संकल्प	कम्पनी के निदेशक श्री दिलीप मोदी (डीआईएन 00029062) द्वारा लाभ का पद या स्थान धारण करने का अनुमोदन
5.	विशेष संकल्प	कम्पनी के कार्यकारी निदेशक श्री रोहित आहूजा (डीआईएन: 00065417) के पारिश्रमिक में संशोधन का अनुमोदन

कम्पनी ने उन सदस्यों, जिनका नाम शुक्रवार, 24 मई, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज था, को कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), मास सर्विसेज लिमिटेड, या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत उनके ईमेल पतों पर सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं, वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी की कुल जारी और प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगी।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 31 मई, 2024 को 9.00 बजे पूर्वाह (आईएसटी) से आरम्भ होगी और शनिवार, 29 जून, 2024 को 5.00 बजे अपराह (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी सदस्य, जिन्हें किसी भी कारण से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, या जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी को investors@digispice.com या कम्पनी के आरटीए को investor@masserv.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सूचना को कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com); एनएसडीएल (www.evoting.nsdl-com); बीएसई (www.bseindia.com); या एनएसई (www.nseindia.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत / प्रश्न के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि ये www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुमाग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित करें या 022 - 4886 7000 अथवा 1800 1020 990 अथवा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या आरटीए से 011-26387281, 82, 83 अथवा <u>investor@masserv.com</u> पर संपर्क करें।

डाक मतपत्र का परिणाम मतदान की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com), बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) पर अपलोड किया जाएगा। परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कृते डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड

दिनांक: 30 मई 2024 स्थानः नोएडा

रूचि मेहता कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

केन फिन होम्स लि. शॉप नं. ४, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कामर्शियल बेल्ट, अल्फा—1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन—201308 CIN: L85110KA1987PLC008699, ई—मेल: greaternoida@canfinhomes.com मोबाइल सं : 7625079164, 0120—4569974

कब्जा सुचना [नियम ८(१)] अचल सम्पत्ति के लिए

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने **केन फिन होम्स लिमिटेड,** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत धारा 13(2) के तहत नियम के 3 के साथ पठित प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **05.03.2024** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार** एवं श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री योगेश कुमार से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु 23,88,577 / – (रुपए तेईस लाख अटटासी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 24 मई 2024 को प्राप्त कर लिया है।

सुरिक्षत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है। वेशेष रूप से कर्जदार / रों, गारंटर / रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति

के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत् सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु. 23,88,577 / – (रुपए तेईस लाख **अट्ठासी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र**) और उस पर आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट सं एफएफ–1, प्रथम तल बैक साइड, प्लॉट सं. 118, शालिमार गार्डन एक्सटेंशन–1 गाजियाबाद 201012। **संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं**: उत्तरः फ्लैट सं. एफएफ—2 दक्षिणः प्लॉट सं. 117 पूर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः फ्लैट सं. एफएफ–4

हस्ता./-

प्राधिकृत अधिकारी,

केन फिन होम्स लिमिटेड

तिथिः 30.05.2024 स्थानः ग्रेटर नोएडा

🕮 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

निम्न लिखित ऋणी, सह-ऋणी व गारण्टर को सचित किया जाता है सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत आपकी सम्पत्ति को एय स्मॉल फाड़नेंस बैंक द्वारा विक्रय किया जा रहा है । यदि आप द्वारा नोटिस दिनांक से ''7 दिवस'' के भीतर बंधक सम्पत्ति में रखा हुआ सामान नहीं हटाया जाता है तो उक्त सामान का बेचान अथवा अन्यत्र किरायाशृदा स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। जिसके हर्जे, खर्चे व स्थानान्तरण के दौरान होने वाले नुकसान के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।सामान प्राप्त करने व इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क सुत्र पर कॉल करें या नजदीकी शाखा में सम्पर्क करें।

ऋण खाता संख्या एवं ऋणी / सह-ऋणी / बंधककर्ता / जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	सम्पर्क सूत्र
खाता संख्या : L9001060126806972 सेतिया ट्रेडर्स (ऋणी) , पंकज सेतिया (सह-ऋणी), श्रीमती सुनीता सेतिया (सह-ऋणी)	संपत्ति स्थित खसरा नं. 558/78-84, सम्पत्ति नं. एक्स/1974, दुसरी मंजिल सीलिंग लेवल तक, गली नं. 07, राजगढ़ एक्सटेंशन, गांव-धोंदली, इलका-शाहदरा, दिल्ली क्षेत्रफल 58.52 वर्ग मीटर	प्रतीक खत्री 8130079830
खाता संख्या : L9001060713621881 ऑकिंड किड्स पैराडाईज एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सैकेटरी अरूण गोयल (ऋणी), दिनेश गोयल पुत्र ग्यासी राम गोयल (सह-ऋणी), श्रीमती चारू गोयल पत्नी अरूण गोयल (सह-ऋणी), अरूण गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी), श्रीमती परमिला देवी पत्नी दिनेश गोयल (सह-ऋणी), नितिन गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी)	(1) संपत्ति स्थित बूथ नं. 108, सेक्टर 55, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 243 वर्ग फीट (2) संपत्ति स्थित मकान नं. एमसीएफ 37, मुस्तिकल नं. 78, किला नं. 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, इटीसी., गली नं. 02, जैन कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा, क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट	ललित गाँड 8130304226
दिनांक- 30-05-2023 स्थान - दिल्ली		। धिकृत अधिकार रेंस बैंक लिमिटे:



CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

पंजीकृत कार्यालय: 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप , 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 23353051, 23353052,

ईमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के स्टैंडएलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों से लिये गए उद्वरण

		स्टॅंडएलोन					समेकित					
क्र. सं	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
सं	iuutvi	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय	360.09	2,381.00	548.57	4,297.07	2,706.75	367.14	2,489.32	553.75	4,416.24	3,560.74	
2	अवधि के लिये शुद्ध लाम/(हानि) (कर एव असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15	
3	कर के पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15	
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(256.03)	1,021.11	39.16	911.36	(104.87)	(772.17)	1,622.19	36.59	962.88	(116.76)	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद)	(283.67)	983.08	38.34	836.42	(77.03)	(604.88)	1,646.59	(110.82)	1,375.78	(254.15)	
6	समतुल्य अंश पूंजी	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	
7	आय प्रति शेयर (इक्विटी प्रति शेयर र 10) 1. मूलमूत : 2. द्रव्य :	(3.47) (3.47)	13.83 13.83	0.53 0.53	12.34 12.34	(1.42) (1.42)	(6.80) (6.80)	21.80 21.80	(1.49) (1.49)	19.65 19.65	(3.82) (3.82)	

अंकेक्षित वित्तिय परिणामों के लिए टिप्पणियां :

1. 30 मई 2024 को हुई बैठक में अंकेक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वितिय परिणामों की समिक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए है, जो कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। उपरोक्त पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.ansalabl.com पर उपलब्ध है।

3. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10/-रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 1/-रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। 4. कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में जयपुर परियोजना से संबंधित ग्राहकों के लिये देय मूल धनराशि कि राशि पर ब्याज वापिस करने का प्रावधान किया है,जो कि ₹ 535.50 लाख है।

> बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से अंसल बिल्डवेल लि.

हस्ता./-

(शोभित चार्ला) पूर्णकालिक निदेशक DIN - 00056364 PARTAP INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Vill Beopror, G.T. Raod, Near Shambhu Barrier. Distt. Patiala, Punjab-140417, INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614, Email: partaplisting2017@gmail.com EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (INR in Lacs except per share data)

			STANDALONE							
SL. NO.	PARTICULARS	For	the Quarter E	oded	For the Year Ended					
NU.		31.03.2024	31,12,2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023				
1	Total Income from operations	8922.46	7007.22	7713.24	28495.77	38809.94				
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	486.08	59.45	(1,821.86)	453.69	2,782.63				
3	Total Comprehensive Income for the period	2,955.34	(120.80)	(1,647.77)	2,382.20	2,176.71				
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each)	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02				
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation	antitude continue	o orania.	50000	50530	50182				
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97				
	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51.46)	74,39	67.97				
		E C		NR in Lacs e		hare data)				
SL.	DADTIFIH ADC	Fore	the Augustus E	CONSOLIDATED	Eastha Ve	ar Endad				

31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 Total Income from operations 7,959.17 10,126.16 8,846.17 37,984.48 44,207.63 Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary (376.37) (2,215.39) (631.98) 2,091.78 Total Comprehensive Income 2,585.45 (556.62) (2,008.81) 1,307.15 1,518.36 for the period Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/-40.02 40.02 40.02 40.02 40.02 Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation 64.60 (13.91)(50.19)32.66 37.94

(2) Diluted

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msei.com and or the Company's website at www.partapdenim.com

64.60

(13.91)

(50.19)

Date: 30.05.2024 Place: Kolhapur

For Partap Industries Limited Sudarshan Paul Bansal

32.66

37.94

Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30.05.2024

www.readwhere.com

Chandigarh

जनसता

(a) pnb Housing

31 मई, 2024

市市 場合的 市民市	पीएनबी हात गय ।।। की। वीग्ए जाने के गाथ संबंधित न अपिडल में माग की जारि प्रत्याभत आरि प्रत्याभत आरि गामुत आस्तिय गमुत आस्तिय गमुत आस्तिय गमुत आस्तिय	शिंग फाइनेसे लिमिटेड (इसमें आगे. पीएनबी इरा 13(2) अहीन मांग सुचेना जारी की थीं। उर इकारण, मारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवात है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें का है। एतदद्वारा आपसे उसत शश्चि, अधातन स्था है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएधएफएस तयों का कब्जा प्रान्त किया जाना शामिल है। तहत अहीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबी हो की बिक्री की सुचना के प्रकाशन की लिये तर में कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त	रचेरिकएल' के ति मांग सचना ह केंक्क के दिशानिक एगों के आधार प्र ज तथा अन्य सी तथा क्यान दित एका च्यान दित एका एका दित है के स्टेस्कर्त हैं समझीते द्वारा प्र	प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन हम में वर्णित) ने वत्तीय आरितयों का प्रतिभतिकरण और पुनर्शनमाण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसर माधिकत अधिकार) हारा निम्नवर्णित औप रक्ष कुछारी / सह—कजदार / मारटरों को जारी की गई भी, क्यांकि अधीं के अनुसार अनाजंक आस्ता के रूप में वर्गीकर किया गया है। उसकी विषयपत्त आपके द्वारा मृत्वधन की किसरों र विषयपत्त आप माग स्वना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीतिए यह भाग से चुना प्रकाशित की जा रही है जो र विषय से कि आप माग स्वना प्रकाशित की जा रही है जो र इसीतिए यह भाग से चुना प्रकाशित की जा रही है जो अधीं से हता दिन की अधीं के अधीं में से से स्वाप्त के प्रकाशन की तिथि से हता दिन की अधीं के भाग संवर्त के प्रकाशन और पाता के अधीं में की अधीं के से की प्रवर्त की पाता की सीतियों के संबंध में आवश्यक कार्यवा तीय आरितयों की प्रतिभाति के सीतियों के सीतियों के सीतियों के किया मार १३ की उप—वाश सुवर की गई सभी तीयाती, प्रमारी की पर्वार प्रकाश में सीतियों की मागती प्रमारी प्रमारी प्रवार की सीव तीया जाता है तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत ता आरितयों की बिकी की सुचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत ता आरितयों का विकी की सुचना के प्रकाश से अंतरण करने के संबंध में रोक लगी है।	में आमें "अधिनिय ॥पका खाता, किश् ब्याज इत्यादि के साकि उक्त अधिन भीतर पीएनबीएर इंडी करेगा, जिसमें (8) के प्रावधानी आमेंत्रण डांस अ	म' के रूप मैं वर्णित) के शतों / ब्याज का मुगतान भुगतान में की गई घूका नैयम की घारा (अ2) के बएकएल को जबा करने में कर्जवारी तथा गारटरों की और आमंत्रित किया ख्या गएर समझीते द्वारा
क. स.	ऋण खाता सं.	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम/पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
10	005615, बी.आ.	श्री प्रिय रंजन सिंह पुत्र श्री राज नारायण सिंह, और श्री मनीष सिंह पुत्र श्री सिंह, पताः निवास स्थानः 302 रामाच्या एन्स्लेव, 8थां क्रॉस, दूसरा मेन. पाई लेआउट, बें गलुरु—560016, और फलेंट नंबर बी—9/9129, बसंत कुंज, नई दिल्ली, दिल्ली—110070, फलेंट नंबर बी2 ई0308, तीसरी मंजिल, पश्मीना बुकबुब्द्स, कम्मासंद्रा, विदराहल्ली होबली, कंआर पुरम होबली, पुराना महास रोड, बेंगलुरु—562129	NA	अनुसूची 'ए' संप्रति (संयुक्त संपत्ति का विवरण) संपत्ति का वह पूरा टुकबा, जिस पर बिदराहल्ली पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नया खाता संख्या 48,49,50 और 51 है (पंचायत संख्या 24, 26 गुंटास, पंचायत संख्या 23/1, 2 एकड़ र गुंटास, पंचायत संख्या 22/1 और 22/2 4 एकड़ और पंचायत संख्या 22/3, 3 एकड़ 15 गुंटास, कुल मिलाकर 10 एकड़ 8 गुंटास) (लगभग 444312 वर्ग फीट) मूनि, जिसे कृषि से गैर-कृषि आवासीय उद्धर्य के लिए परिवर्तित किया नया है, कम्मासंद्रा गांव, बिदराहल्ली होबली, बेंगलुरु पूर्व तालुका में रिखत है और पूर्व में सड़क, परिचन में सड़क संख्या 25, 28 और 27, उत्तर में सड़क संख्या 20 और 21, दक्षिण में बयाप्पनहल्ली गांव की सीमा से घिरा है। अनुसूची 'बी' संपत्ति अनुसूची ए संपत्ति में 157 वर्ग फीट के बराबर अविभाजित हिस्सा, अधिकार और हित। अनुसूची 'सी' संपत्ति (निर्माण किया जाने वाला अपार्टमेंट) मंजिल 03 पर नंबर बीटई0306 वाले पलैट का वह पूरा टुकड़ा जिसमें एक बेंडरूम, हॉल, रसोई है। प्रभीना बूकचुड्स नामक इमारत में 525 वर्ग फीट के सुपर बिल्ट अप एरिया के साथ एक कवर्ड कार पार्क का निर्माण अनुसूची ए संपत्ति पर किया जाना है।	13.05.2024	13.05.2024 तक रु. 15,85,614/- (रुपये पन्द्रह लाख पिच्चासी हजार छह सी चौद्रह महत्र)

प्रतिभृति हित (प्रवर्तुन), नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और

पंजी, कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली–110001,

फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

जयानगर शाखा:-1125 / 12, भूतल, हम्पी नगर, विजयानगर, बेंगलुरा-580104,

SMFG Grihashakti

स्थान : जयानगर, दिनांकित : 31-05-2024

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कॉर्पोरेट कार्यालय : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इसपॉयर बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांब्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांब्रा (ई), मुंबई- 400051 महाराष्ट्र पंजीकृत कार्यालय : मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 307, नया नंबर 165, पूनमल्ली हाई रोड मदुरावॉयल, चेन्नई-600095

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पूनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) **(एसएमएफजी आईएचएफसीएल)** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस के प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भूगतान करने का कहा किया गया है। अधोहस्ताक्षरी यथोचित रूप से मानते हैं कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस (सूचनाओं) को प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा को चिपकाकर और प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग नोटिस (सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे दी गई है:

क्रं सं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम,संपत्ति धारकों जैसा भी मामला हो	प्रतिभूति संपत्ति/बंधक संपत्ति का विवरणः	धारा ३(२) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख और कुल बकाया
1.	लैनः 609139511183795 1. हितेश यादव 2. लता देवी 3. सुशीला देवी पताः 124, बीएसएनएल टावर के पास, जरही हरसरू (46), गुड़गांव— 22 505	वाका सिवाना, गढ़ी हरसरू उप—तहसील : हरसरू जिला गुरुग्राम हिरयाणा में स्थित प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, खेवट/खाता संख्या 304—306—307, एमयू संख्या 36, किला संख्या 2/2 (1—12), 3/1 (7—0), 6/1 (4—18), 6/2 (5—1) 8 (7—3), 9/1 (1—19), 26 (0—15), 4/2 (6—) ॄ 16), 7/1/1 (0—12), 7/2/1 (6—16), 14/2 (5—8) । प्लॉट की सीमाएं = पूर्व : अन्य की संपत्ति; =पश्चिम : अन्य की संपत्ति; = उत्तर : अन्य संपत्ति; =दक्षिण : 20 फीट चौड़ी सड़क,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु.10,93,929 / — (दस लाख तिरानबे हजार नौ सौ उनतीस रूपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
2.	लैनः 609139211321494 एवं 109139511371782 1. रघु कटारिया 2. नीलम कटारिया पताः एच. नं. 95 और 96 यूजीएफ, फ्रंट साइड ब्लॉक-एल, मोहन गार्डन,उत्तम नगर दिल्ली-110059.	गांव नवादा और कॉलोनी, जिसे मोहन गार्डन के नाम से जाना जाता है के क्षेत्र, ब्लॉक-एल एक्सटेंशन उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 में स्थित छत के अधिकार के बिना निर्मित ऊपरी भूतल (सामने की ओर),संपत्ति संख्या 95-ए और 96 पर निर्मित, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज यानि 66.88 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 382 में से, साझा अधिकार के साथ प्रवेश/गेट, सीढ़ी का उपयोग करने के अधिकार, साझा अधिकार के साथ स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार पार्किंग स्थान, भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार शामिल है इस प्रकार से घिरा हुआ है – पूर्वः सड़क 20 फीट; पश्चिमः संपत्ति संख्या 95-ए और 96 का भाग; उत्तरः प्लॉट सं. 97; =दक्षिणः प्लॉट सं. 94	दिनांकः 11.05.2024 10.05.2024 के अनुसार रु. 32,21,216/— (रुपये बत्तीस लाख इक्कीस हजार दो सौ सोलह मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
3.	लैनः 609139211487083 1. संजीव कुमार 2. मीना गुप्ता पताः सी–5 / 24, यूजीएफ, यमुना विहार दिल्ली –110053	गंव निम्मी विहार साईं रेजीडेंसी में स्थितः इलाहाबास परगना और तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर यूपी — 201 301 में फ्री होल्ड, 2" तल, रिहायशी एचआईजी फ्लैट नंबर 201 और 202 बाएं हाथ की ओर, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर खसरा नंबर 322, प्लॉट नंबर 101, ब्लॉक—बी पर निर्मित, चौहदी = पूर्वः अन्य संपत्ति; = पश्चिमः प्रवेश / सड़क 20 फीट; उत्तरः ज्योति की संपत्ति; दक्षिणः फ्लैट नंबर 203 और 204 और महेंद्र की संपत्ति।	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 35,53,401/— (रुपये पैंतीस लाख तिरपन हजार चार सौ एक मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
4.	लैनः 609107210468609 1 . राजेश कुमार कश्यप 2. मंजू रानी पताः एच. नं. 176, गली नं. 8, जी—5 ब्लॉक,सोनिया विहार, दिल्ली—100018	डीआईएफ, अंकुर विहार, लोनी गांव ,परगना और तहसील, जिला गांजियाबाद—201 102 में स्थित फ्लैट बियरिंग नंबर जीएफ—3 भूतल पर बिना छत के अधिकार के, दाहिने हाथ की पिछली तरफ "उक्त मंजिल" आवासीय प्लॉट नंबर एल पर बी—4/12, क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 14,98,217 / — (चौदह लाख अड्डानवे हजार दो सौ सत्रह रूपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
5.	लैनः 605438011123773 और 111239511316289 1 . नरेश कुमार , 2. पवित्रा देवी 5. दौलत राम पता : डी—198, महेंद्र एन्क्लेव, शास्त्री नगर गाजियाबाद—201002	स्वर्ण जयंती पुरम, गाजियाबाद—201 013 में स्थित आवासीय द्वितीय तल, क्षेत्रफल 104 वर्ग मीटर, भूखंड संख्या डी—335 पर निर्मित,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 43,57,782 / — (रु. तैंतालीस लाख सत्तावन हजार सात सौ बायसी मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024
6	लैनः 610839211096656 1.रमेश चंद सैनी पुत्र, राम चंद्र सैनी, 2.सविता सैनी पत्नी, रमेश चंद सैनी पता : ओरंग शाह पुर, गोलाबाद, फजलपुर, बाला जी मंदिर के पास, मेरठ–250002	औरंगशाहपुर, गोलाबार (पुष्प विहार) मेरठ में स्थित आवासीय प्लॉट जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—5 है, जिसका माप 52 वर्ग गज या 47.55 वर्ग मीटर है, जिसमें खसरा नंबर 396डी शामिल है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं — पूर्वः 20'7"/ प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—6 है; पश्चिमः 21'7'/ रोड; = उत्तरः 22'5"/ प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—4 है; दक्षिणः 22'5"/ मंदिर।	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 6,48,945 /— (छह लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पैंतालीस रुपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024

उधारकर्ता(ओं) को एतद्दवारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें एवं इसके ऊपर उल्लिखित मांग राशि के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से **60 दिनों** के भीतर करें। उधारकर्ता यह नोट करें कि **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल, एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा अचल संपत्ति / संपत्तियों के प्रति एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ता (ओं) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) का कब्जा शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने और भुगतान की वसूली तक सीमित नहीं है। **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को संलग्न और 🖊 या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल को भी बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी आईएचएफसीएल को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को बेचने या पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य) कार्य) के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने या डीलिंग करने से प्रतिबंधित किया / रोका जाता है। और उपर्युक्त का गैर अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : गुरुग्राम हरियाणा / नई दिल्ली, जी बी नगर / गाजियाबाद / मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिनांकः 11.05.2024

हस्ता /- अधिकृत अधिकारी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Whilst care is taken prior to

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com (a) pnb Housing **नोएडा शाखाः**— पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, डी–2, सेक्टर – 3, नोएडा (यूपी)–201301 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पिठत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और प्नरनिर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

पुनरिनर्मीण एवं प्रतिमृति हिंत प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना हम, पीएनबी हाउसिंग फ़ाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिमृतिकरण और पुनरिनर्माण एवं प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनयम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदार / गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों / व्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजव बैंक / राष्ट्रीय आवास बेंक के दिशानिदेशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्त आपके हारा मूलचन प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसािक उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतदद्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्यामृत आस्तियों के मंखा मं आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्यामृत की छारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्यामृत आस्तियों के महंबध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्यामृत की उपार किया जाना शामिक है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरिनर्गिण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रायामा सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोर्ट्शन, निवेदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभृत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट कर कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्यार सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोर्टशन, निवेदा आमंत्रण द्वार नही होंगे। आगे, आप के ऊपर एक अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अतरण करने के संबंध में, राकती है। आ

क्र.		मं कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता नाम		बंधक	मांग सूचना	माग सूचना के
स.	खाता सं.		नाम और पता	सम्पत्ति	की तिथि	अनुसार बकाया राशि
1.	0016666 0005152, बी.ओ. नोएडा	श्री दीपक रमानी और श्रीमती माया वाशु रमानी पता:1— 23 सी / 05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93 ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 पता:2—अपार्टमेंट नंबर—204,टॉवर नंबर—19, ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505. श्री दीपक रमानी पता:3—यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.		अपार्टमेंट नंबर—204, टॉवर नंबर—19,ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505.	18.05.2024	15.05.2024 तक रु.97,80,060.46 / — (रुपये सत्तानवे लाख अस्सी हजार साठ और छियालीस पैसा मात्र)
2.	NHL/NOI /0717/40 8438, बी.ओ. नोएडा		"	718, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301.		15.05.2024 तक रु.28,40,773.12/— (रुपये अड्डाइस लाख चालीस हजार सात सौ तिहत्तर और बाहर पैसा मात्र)
	0517/363 644, बी.ओ. नोएडा	श्री दीपक रमानी और श्री वाशु कन्हैयालाल चोइथ रमानी पता:1— 23 सी /05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. पता:2— 719, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2 / 2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. श्री दीपक रमानी पता:3— यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.	NA NA	719, 7, टावर ए, एटीएस बुकें कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301.		15.05.2024 रु.26,57,835.58 / — (रुपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ पैंतीस और अड्डावन पैसा मात्र)
स्था	न : दिल्ली/	एनसीआर, दिनांकित : 31-05-2024	प्राधि	कृत अधिकारी, वास्ते पीएन	बी हाउसिंग	ा फाइनैंस लिमिटेड

DIGISPICE

डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जेए-122, पहली मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला, नई दिल्ली - 110025 सीआईएन: L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011-41251965, ईमेलः complianceofficer@digispice.com; वेबसाइटः www.digispice.com

डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 एवं अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, एवं इसकें अनुक्रम में अन्य परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023, एवं किसी अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, परिपत्र तथा दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुपालन में डिज़िस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों के विचार हेत् निम्न उल्लिखित व्यवसाय(ओं) पर, डाक मतपत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से ('रिमोट ई-वोटिंग') संकल्पों का अनुमोदन कर पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है:

मद संख्या	संकल्प	संकल्प का विवरण
1.	विशेष संकल्प	श्री येंकटरामु जयंती (डीआईएन 08918442) को कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने एवं उन्हें देय पारिश्रमिक का अनुमोदन
2.	विशेष संकल्प	कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 186 के अंतर्गत निवेश करने, ऋण देने, गारंटी देने या प्रतिभृतियां प्रदान करने हेतु अनुमोदन
3.	विशेष संकल्प	अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण देने, ऋण के संबंध में गारंटी देने या प्रतिभृतियां प्रदान करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकरण का अनुमोदन
4.	साधारण संकल्प	कम्पनी के निदेशक श्री दिलीप मोदी (डीआईएन 00029062) द्वारा लाभ का पद या स्थान धारण करने का अनुमोदन
5.	विशेष संकल्प	कम्पनी के कार्यकारी निदेशक श्री रोहित आहूजा (डीआईएन: 00065417) के पारिश्रमिक में संशोधन का अनुमोदन

कम्पनी ने उन सदस्यों, जिनका नाम शुक्रवार, 24 मई, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सुची में दर्ज था, को कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), मास सर्विसेज लिमिटेड, या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत उनके ईमेल पतों पर सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रिजस्टर / लाभार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं, वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी की कुल जारी और प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगी।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 31 मई, 2024 को 9.00 बजे पूर्वीह (आईएसटी) से आरम्भ होगी और शनिवार, 29 जून, 2024 को 5.00 बजे अपराह (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी सदस्य, जिन्हें किसी भी कारण से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, या जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी को investors@digispice.com या कम्पनी के आरटीए को investor@masserv.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सूचना को कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com); एनएसडीएल (www.evoting.nsdl-com); बीएसई (www.bseindia.com); या एनएसई (www.nseindia.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत / प्रश्न के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित करें या 022 - 4886 7000 अथवा 1800 1020 990 अथवा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या आरटीए से 011-26387281, 82, 83 अथवा <u>investor@masserv.com</u> पर संपर्क करें।

डाक मतपत्र का परिणाम मतदान की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com), बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) पर अपलोड किया जाएगा। परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कृते डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

रूचि मेहता कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

केन फिन होम्स लि. शॉप नं. 4, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कामर्शियल बेल्ट, अल्फा—1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन—201308 CIN: L85110KA1987PLC008699, ई—मेल: greaternoida@canfinhomes.com (स1987PLC008699, इ—मेल: greaternoida@canf मोबाइल सं : 7625079164, 0120—4569974

कब्जा सूचना [नियम ८(१)] अचल सम्पत्ति के लिए

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने **केन फिन होम्स लिमिटेड,** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत धारा 13(2) के तहत नियम के 3 के साथ पिठत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **05.03.2024** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार** एवं श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री योगेश कुमार से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु. 23,88,577 / – (रुपए तेईस लाख अट्ठासी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 24 मई 2024 को प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत् सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि रु. 23,88,577 / – (रुपए तेईस लाख **अटठासी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र**) और उस पर आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

विशेष रूप से कर्जदार / रों, गारंटर / रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति

फ्लैट सं एफएफ—1, प्रथम तल बैक साइड, प्लॉट सं. 118, शालिमार गार्डन एक्सटेंशन—1, गाजियाबाद 201012। संपत्ति की सीमाएँ निम्नानसार हैं:

उत्तरः फ्लैट सं. एफएफ–2 दक्षिणः प्लॉट सं. 117 पर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः फ्लैट सं. एफएफ—4

तिथिः 30.05.2024

स्थानः ग्रेटर नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

हस्ता. /-

🐠 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

निम्न लिखित ऋणी, सह-ऋणी व गारण्टर को सुचित किया जाता है सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत आपकी सम्पत्ति को एय स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा विक्रय किया जा रहा है। यदि आप द्वारा नोटिस दिनांक से ''7 दिवस'' के भीतर बंधक सम्पत्ति में रखा हुआ सामान नहीं हटाया जाता है तो उक्त सामान का बेचान अथवा अन्यत्र किरायाशुदा स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । जिसके हर्जे, खर्चे व स्थानान्तरण के दौरान होने वाले नकसान के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे । सामान प्राप्त करने व इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र पर कॉल करें या नजदीकी शास्त्रा में सम्पर्क करें।

ऋण खाता संख्या एवं ऋणी / सह-ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	सम्पर्क सृत्र
खाता संख्या : L9001060126806972 सेतिया ट्रेडर्स (ऋणी), पंकज सेतिया (सह-ऋणी), श्रीमती सुनीता सेतिया (सह-ऋणी)	संपत्ति स्थित खसरा नं. 558/78-84, सम्पत्ति नं. एक्स/1974, दुसरी मॉजिल सीलिंग लेवल तक, गली नं. 07, राजगढ़ एक्सटेंशन, गांव-घोंदली, इलका-शाहदरा, दिल्ली क्षेत्रफल 58.52 वर्ग मीटर	प्रतीक खत्री 8130079830
खाता संख्या : L9001060713621881 ऑकिंड किड्स पैराडाईज एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सैकेटरी अरूण गोयल (ऋणी), दिनेश गोयल पुत्र ग्यासी राम गोयल (सह-ऋणी), श्रीमती चारू गोयल पत्नी अरूण गोयल (सह-ऋणी), अरूण गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी), श्रीमती परमिला देवी पत्नी दिनेश गोयल (सह-ऋणी), नितिन गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी)	(1) संपत्ति स्थित बृथ नं. 108, सेक्टर 55, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 243 वर्ग फीट (2) संपत्ति स्थित मकान नं. एमसीएफ 37, मुस्तिकल नं. 78, किला नं. 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, इटीसी., गली नं. 02, जैन कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा, क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट	ललित गौड़ 8130304226

दिनांक- 30-05-2023 S/d प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



सल बिल्डवल लि.

दिनांक: 30 मई 2024

स्थानः नोएडा

CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

पंजीकृत कार्यालय: 118, ऊपरी प्रथम तल, प्रकाश दीप , 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 23353051, 23353052,

ईमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के स्टैंडएलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों से लिये गए उद्वरण

П		स्टैंडएलोन					समेकित					
丣.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
सं		मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय	360.09	2,381.00	548.57	4,297.07	2,706.75	367.14	2,489.32	553.75	4,416.24	3,560.74	
2	अवधि के लिये शुद्ध लाम / (हानि) (कर एव असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15	
	कर के पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15	
	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(256.03)	1,021.11	39.16	911.36	(104.87)	(772.17)	1,622.19	36.59	962.88	(116.76)	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद)	(283.67)	983.08	38.34	836.42	(77.03)	(604.88)	1,646.59	(110.82)	1,375.78	(254.15)	
6	समतुल्य अंश पूंजी	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	
7	आय प्रति शेयर (इक्विटी प्रति शेयर ₹10) 1, मूलमूत : 2. द्रव्य :	(3.47) (3.47)	13.83 13.83	0.53 0.53	12.34 12.34	(1.42) (1.42)	(6.80) (6.80)	21.80 21.80	(1.49) (1.49)	19.65 19.65	(3.82) (3.82)	

अंकेक्षित वित्तिय परिणामों के लिए टिप्पणियां :

1. 30 मई 2024 को हुई बैठक में अंकेक्षित स्टैंडएलोन और समेकित वित्तिय परिणामों की समिक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए हैं, जो कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। उपरोक्त पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.ansalabl.com पर उपलब्ध है।

3. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10/-रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 1/-रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

 कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में जयपुर परियोजना से संबंधित ग्राहकों के लिये देय मूल धनराशि कि राशि पर ब्याज वापिस करने का प्रावधान किया है,जो कि ₹ 535.50 लाख है। बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से अंसल बिल्डवेल लि. हस्ता./-

> (शोभित चार्ला) पूर्णकालिक निदेशक DIN - 00056364

PARTAP INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: Vill Beopror, G.T. Raod, Near Shambhu Barrier,

स्थान - दिल्ली

(for Continuing operation) & Discontinued Operation

Distt. Patiala, Punjab-140417, INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614, Email: partaplisting2017@gmail.com. EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

(INR in Lacs except per share data) PARTICULARS For the Quarter Ended For the Year Ended 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 Total Income from operations 8922.46 7007.22 7713.24 28495.77 38809.94 Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary 59.45 (1.821.86) 453.69 2.782.63 Total Comprehensive Income 2,955.34 (120.80) (1,647.77) 2,382.20 2,176.71 for the period. Paid-up Equity Share Capital 32,02,350 Equity Shares of 32.02 32.02 32.02 32.02 32.02 INR 10/- each) 5 Earnings per equity

	Discontinued Operation					
П	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97
_	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51.46)	74,39	67.97
	(1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	viii oonoraa	(1)	NR in Lacs e	except per s	hare data)
1			- 9	CONSOLIDATE)	
SL. NO.	PARTICULARS	For	the Quarter E	nded	For the Ye	ear Ended
1101	9 8000000000000000000000000000000000000	31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from operations	7,959.17	10,126,16	8,846.17	37,984.48	44,207.63
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	105.57	(376.37)	(2,215.39)	(631.98)	2,091.78
3	Total Comprehensive Income for the period	2,585.45	(556.62)	(2,008.81)	1,307.15	1,518,36
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/- each)	40.02	40.02	40.02	40.02	40,02
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation					
	(1) Basic	64.60	(13.91)	(50.19)	32.66	37.94
	(2) Diluted	64.60	(13.91)	(50.19)	32.66	37.94

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone. and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msel.com and on

the Company's website at www.partapdenim.com For Partap Industries Limited Sudarshan Paul Bansal Date: 30.05.2024 Place: Kolhapur Chairman & Managing Director

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30.05.2024 SMFG

Grihashakti

		nce Limited	0000	जयानगर शास्त्रा:1125/12, भूतल, हम्पी नगर, विजयानगर, बेंगलुरु-560104;		error ofter
	प्रातन्त्रा	पनरनिर्माण एवं प्रति	मति हित	अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों क । प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की घारा 13(2) के अधीन	ग प्रातम्हार	करण आर
1	पीएनबी हार	इसिंग फाइनैस् तिमिटेड (इसमें आर्ग पीएनबीर	रचेंद्रफएल के	रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनरतिर्माण एवं प्रतिभृति हिंद प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इस हमारे प्राधिकते अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित औप सब कर्जवर्ति / सह—कर्जवर / गारटरों को जारी की गई थीं क्योंकि अ देशों के अनुसार अनाजंक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मृत्यधन की विद्यता ।र विश्वास है कि आप मांगू सूचना प्राप्त करने से बच्च रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकृतिकते की जा रही है, जर	मं और अधिनिय	म" के रूप में वर्णित)
á	(य ।।। का व किए जाने व	बारा 13(2) अधान माग शूचना जारा का था। उव हे कारण, भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवास	त्त माग सुचना : बैक के दिशानि	हुमार प्राचकृत आपकारी द्वारा निश्नवाणत आप सब कृजदारा / सह—कजदार / गारटरा का जारा का गई था. क्यांक अ देशों के अनसार अनाजक आस्ति के रूप में दगीकत किया गया है । उसकी विषयवस्त आपके द्वारा मत्स्यन की कियता :	रापका खाता, १क् ब्याज इत्यादि क	स्ता / ब्याज का भुगत मगतान में की गई च
Š.	ाथ संबंधित	है। बकाया राशि नीये दी गई है। ओगे, हमें का	रणों के आधार प	ए विश्वास है कि आप मांगू सूधना प्राप्त करने से बधु रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूँधना प्रकाशित की जा रही है, जैर	पाकि चेवत अधि	नैयम की धारा 13(2
117	न अयोक्षत म् संग की जात	। हुन पुरावद्वारा आपस्य ७वत शास, अध्यतन ब्यार हे हे । जिसमे विफल रहने पर पीएनबीएथएफएठ	त तथा अन्य रा। र जवत अधिनिर	शियों सहित, जो मुगतान की तिथि तक देय हो सकती है, इस मांग सचना के प्रकाशन की तिथि से 80 दिन की अवधि के 1मू की शारा 13(4) के प्रावृक्षानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सीमी प्रत्यामूत आस्तियों के सुक्क में आवश्यक कार्यक्ष	मात्रस् पाएनुबाएर् ही करेगा. जिसन	बएकपुल का अदा व कजीदारों तथा गार
19	स्याभूत आर्	रेतयों का कृष्णा प्राप्त किया जाना शामिल है। उ	गपका ध्यान वि	तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकारण अर पुनरीनेमीण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा हा वहन की गई सभी लीगतों, प्रभारी तथा व्ययों सहित, को भुगतान सर्विजनिक नीलामी, जनता से कोट्झन, निविद्धा है। कृपया यह भी नोट कर कि यदि सम्पूर्ण बकाया राहि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों त ह्याभूत आस्तियों की बिक्की की सुकना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत त अस्तियों का बिक्की, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, शेक लगी है।	i (a) के प्रायधानी	की ओर आमंत्रित वि
या	१ हे, उजसक मत आस्तिर	तहत अधान आप सम्पून बकाया राशि, पाएन में की बिकी की संचना के प्रकाशन की लिखे तह	एएचएफएल ह ह ही कर सकत	ारा चहन का गई सम्। लागता, प्रमास तथा व्यया साहत्, का मुगतान सावजानक नालामा, जनता स काटरान, ।नावदा है। क्रयया यह मी मोट कर कि यदि सम्पर्व बकाया राजि. पीएमबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागता। प्रमारा त	आमत्रम् द्वारा अ ह्या व्यया सहित	वया गुप्त समझात ह
न्	भी, जनता	से कोटेशन, निर्विदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त	लमझौते द्वारा प्र	त्यामृते आरितयों की बिक्री की सुबना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है. तो आप उसके पश्चात प्रत्यामृत	आस्ति(या) छुड़ान	ने के हिकदार नहीं हो
			-90 EN 100 MILE		Company of the control of the contro	
	ऋण खाता सं	उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता का नाम/पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सृचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया रा
	005615,	श्री प्रिय रंजन सिंह पुत्र श्री राज नारायण सिंह, और श्री मनीष सिंह पुत्र श्री सिंह, पताः निवास स्थानः 302 रामाय्या एन्वलेव, इवं क्रॉस, दूसरा मेन, पाई लेखाउट, वंगलुरु-560016, और पलेट नवर वी-9/9129, बसंत कुंज, नई दिल्ली, दिल्ली-110070, फ्लैट नंबर बी2 ई0306, तीसरी मंजिल, पश्मीना बूकवुब्स, कम्मासंद्रा, विदराहल्ली होबली, कंबार पुरम होबली,	NA.	अनुसूची "ए" संपत्ति (संयुक्त संपत्ति का विवरण) संपत्ति का वह पूरा टुकर्सा, जिस पर बिदराहरूली पंचायत कार्यालय द्वारा जारी नया खाता संख्या 48.48.50 और 51 है (पंचायत संख्या 24, 26 गुटास, पंचायत संख्या 22/1 और 22/2 4 एकड़, और पंचायत संख्या 22/3 3 एकड़ 15 गुटास, कुल मिलाकर 10 एकड 8 गुटास) (लगभग 444312 वर्ग फीट) भूमि, जिसे कृषि से गैर-कृषि आवासीय उद्देश्य के लिए परिवर्तित किया गया है, कम्मासद्वा गाव, बिदराहरूली होबली, बेंगलुरु पूर्व तालुका में स्थित है और पूर्व में सड़क परिचान में सड़क संख्या 25, 26 और 27, उत्तर में सड़क संख्या 20 और 21, दक्षिण में बयाप्पनहरूली गाव की सीमा से घिरा है। अनुसूची "बी" संपत्ति अनुसूची ए संपत्ति में 157 वर्ग फीट के बराबर अविभाजित हिरसा, अधिकार और हित। अनुसूची "सी" संपत्ति (निर्माण किया जाने वाला अपार्टमेंट) मंजिल 03 पर नंबर बीटई0306 वाले पर्लट का वह पूरा टुकड़ा जिसमें एक बेडरूम, हॉल, रसोई है। परिमीना बुक्युइस नामक इनारत में 525 वर्ग फीट के सुपर बिल्ट अप एरिया के साथ एक कवर्ड कार पार्क का	13.05.2024	13.05.2024 त ७. 15,85,614 (रुपये पन्द्रह ला पिच्यासी हजार सी चीदह मात्र
		पुराना मदास रोड, बेंगलुरु–862129.		निर्माण अनुसूची ए संपत्ति पर किया जाना है। प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी र	200	

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001 (a) **pnb** Housing फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com **नोएडा शाखाः**— पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, डी–2, सेक्टर – 3, नोएडा (यूपी)–201301 प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुेनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हिंत प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की घारा 13(2) के अधीन सूचना पुनरिनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना
हम् पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरिनर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमार प्राधिकृत अधिकृति द्वारा
निम्नवर्णित आप संब कर्जदारों / सह—कर्जदार / गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता किशतों / ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्
नैक / राष्ट्रीय आवास बेंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनाजंक आस्ति के रूप में वर्णीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मुलधन को किशतों, ब्याज इत्यादि के
भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है के आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और
इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही हैं, जैसािक उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपिकृत भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य
राशियों सहित जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग
की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभृत आस्तियों के संबंध में
आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभृत अस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण
और पुनरिनर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप—धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण
बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निवेदा आमंत्रण द्वारा चुका सम्पूर्ण
पूप्त सम्बात द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा यहा सार्वजित नीलामी, जनता से कोटेशन, निवेदा आमंत्रण द्वारा सम्बात द्वारा प्रवर्त मार्वजित की स्वार्त की बिक्त की स्वार्त के प्रवर्त मार्वजित सम्बार्त सम्बार्त सम्बार्त सम्वत्व सम्वत्व की तथा सम्बार्त की स

द्वारी आप	प्रत्याभूत आि के ऊपर, उक	स्तयों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं कियाँ ज त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों	ाता है, तो अ का बिक्री, पर	ाप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(र टटा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण	गं) छुड़ाने के करने के संबंध	हकदार नहीं होंगे। आगे, य में, रोक लगी है।
क्र. स.	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह-कर्जदार का नाम / पता	ग्रांटर का नाम और पता	बंधक	मांग सूचना की तिथि	
	0016666 0005152, बी.ओ. नोएडा	श्री दीपक रमानी और श्रीमती माया वाशु रमानी पता:1—23 सी / 05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93 ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 पता:2—अपार्टमेंट नंबर—204,टॉवर नंबर—19, ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505. श्री दीपक रमानी पता:3—यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.	IVA	अपार्टभेंट नंबर—204, टॉवर नंबर—19,ग्रीनपोलिस्, सेक्टर—89 में स्थित, गुड़गांव—मानेसर के मास्टर प्लान में, गुड़गांव, हरियाणा—122505.		15.05.2024 तक रु.97,80,060.46 / — (रुपये सत्तानवे लाख अस्सी हजार साठ और छियालीस पैसा मात्र)
2.	8438, बी.भो	श्री दीपक रमानी और श्री वाशु कन्हैयालाल चोइथ रमानी पता:1— 23 सी/05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93 ए, एक्सप्रेसचे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. पता:2— 718, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301 श्री दीपक रमानी पता:3—यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.		718, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301.		15.05.2024 तक रु.28,40,773.12 / – (रुपये अड्डाइस लाख चालीस हजार सात सौ तिहत्तर और बाहर पैसा मात्र)
	051//383 644, बी.ओ. नोएडा	श्री दीपक रमानी और श्री वाशु कन्हैयालाल चोइथ रमानी पता:1— 23 सी/05, एटीएस ग्रीन विलेज, सेक्टर—93ए, एक्सप्रेसवे, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. पता:2— 719, 7, टावर ए, एटीएस बुके कमर्शियल, प्लॉट नंबर ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301. श्री दीपक रमानी पता:3— यूनिवर्सल ट्रैवल सर्विसेज, डी—88, ग्राउंड फ्लोर, कालकाजी, नई दिल्ली—110019.	NA	719, 7, टावर ए, एटीएस बुकें कमर्शियल, प्लॉट नं. ए2/2, सेक्टर—132, गौतम बुद्ध नगर, ईटीटी टावर, नोएडा, उत्तर प्रदेश—201301.		15.05.2024 रु.26,57,835.58 / – (रुपये छब्बीस लाख सत्तावन हजार आठ सौ पैंतीस और अड्डावन पैसा मात्र)
स्थान	ा : दिल्ली/	एनसीआर, दिनांकित : 31-05-2024	प्राधि	कृत अधिकारी, वास्ते पीएन	बी हाउसिंग	फाइनैंस लिमिटेड

(पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) कॉर्पोरेट कार्यालय : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसपॉयर बीकेसी बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400051 महाराष्ट्र पंजीकृत कार्यालय : मेघ टावर्स, तीसरी मंजिल, प्रांगा नंबर 307, नया नंबर 165, पुनमली हाई रोड मद्रावॉयल, चेन्नई-600095

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम'') और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत

. अधोहस्ताक्षरी अधिनियम के तहत **एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) **(एसएमएफजी आईएचएफसीएल)** के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और नियम 3 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस के प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भूगतान करने का कहा किया गया है। अधोहस्ताक्षरी यथोचित रूप से मानते हैं कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस (सूचनाओं) को प्राप्त करने से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की सेवा को चिपकाकर और प्रकाशन द्वारा प्रभावी की जा रही है। मांग नोटिस (सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे दी गई है:

100	(सूचनीआ) का सामग्रा यहा नाच दा गई हः							
क्रं सं.	ऋण खाता संख्या और उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता का नाम,संपत्ति धारकों जैसा भी मामला हो	प्रतिभूति संपत्ति/बंधक संपत्ति का विवरणः	धारा 3(2) के तहत डिमांड नोटिस की तारीख और कुल बकाया					
ı.	लैनः 609139511183795 1. हितेश यादव 2. लता देवी 3. सुशीला देवी पताः 124, बीएसएनएल टावर के पास, जरही हरसरू (46), गुड़गांव— 22 505	वाका सिवाना, गढ़ी हरसरू उप—तहसील : हरसरू जिला गुरुग्राम हिरयाणा में स्थित प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज, खेवट/खाता संख्या 304—306—307, एमयू संख्या 36, किला संख्या 2/2 (1—12), 3/1 (7—0), 6/1 (4—18), 6/2 (5—1) 8 (7—3), 9/1 (1—19), 26 (0—15), 4/2 (6—) ॄ 16), 7/1/1 (0—12), 7/2/1 (6—16), 14/2 (5—8) । प्लॉट की सीमाएं = पूर्व : अन्य की संपत्ति; =पश्चिम : अन्य की संपत्ति; = उत्तर : अन्य संपत्ति; =दक्षिण : 20 फीट चौड़ी सड़क,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु.10,93,929 / — (दस लाख तिरानबे हजार नौ सौ उनतीस रूपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024					
2.	लैनः 609139211321494 एवं 109139511371782 1. रघु कटारिया 2. नीलम कटारिया पताः एच. नं. 95 और 96 यूजीएफ, फ्रंट साइड ब्लॉक-एल, मोहन गार्डन,उत्तम नगर दिल्ली-110059.	गांव नवादा और कॉलोनी, जिसे मोहन गार्डन के नाम से जाना जाता है के क्षेत्र, ब्लॉक-एल एक्सटेंशन उत्तम नगर नई दिल्ली-110059 में स्थित छत के अधिकार के बिना निर्मित ऊपरी भूतल (सामने की ओर),संपत्ति संख्या 95-ए और 96 पर निर्मित, क्षेत्रफल 80 वर्ग गज यानि 66.88 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 382 में से, साझा अधिकार के साथ प्रवेश/गेट, सीढ़ी का उपयोग करने के अधिकार, साझा अधिकार के साथ स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार पार्किंग स्थान, भूमि के आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार शामिल है इस प्रकार से घिरा हुआ है – पूर्वः सड़क 20 फीट; पश्चिमः संपत्ति संख्या 95-ए और 96 का भाग; उत्तरः प्लॉट सं. 97; =दक्षिणः प्लॉट सं. 94	दिनांकः 11.05.2024 10.05.2024 के अनुसार रु. 32,21,216/— (रुपये बत्तीस लाख इक्कीस हजार दो सौ सोलह मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024					
3.	लैनः 609139211487083 1. संजीव कुमार 2. मीना गुप्ता पताः सी–5 / 24, यूजीएफ, यमुना विहार दिल्ली –110053	गंव निम्मी विहार साईं रेजीडेंसी में स्थितः इलाहाबास परगना और तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर यूपी — 201 301 में फ्री होल्ड, 2" तल, रिहायशी एचआईजी फ्लैट नंबर 201 और 202 बाएं हाथ की ओर, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज यानी 83.61 वर्ग मीटर खसरा नंबर 322, प्लॉट नंबर 101, ब्लॉक—बी पर निर्मित, चौहद्दी = पूर्वः अन्य संपत्ति; = पश्चिमः प्रवेश / सड़क 20 फीट; उत्तरः ज्योति की संपत्ति; दक्षिणः फ्लैट नंबर 203 और 204 और महेंद्र की संपत्ति।	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 35,53,401/— (रुपये पैंतीस लाख तिरपन हजार चार सौ एक मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024					
4.	लैनः 609107210468609 1 . राजेश कुमार कश्यप 2. मंजू रानी पताः एच. नं. 176, गली नं. 8, जी—5 ब्लॉक,सोनिया विहार, दिल्ली—100018	डीआईएफ, अंकुर विहार, लोनी गांव ,परगना और तहसील, जिला गाजियाबाद—201 102 में स्थित फ्लैट बियरिंग नंबर जीएफ—3 भूतल पर बिना छत के अधिकार के, दाहिने हाथ की पिछली तरफ "उक्त मंजिल" आवासीय प्लॉट नंबर एल पर बी—4 / 12, क्षेत्रफल 168 वर्ग मीटर,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 14,98,217/— (चौदह लाख अड्डानवे हजार दो सौ सत्रह रूपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024					
5.	लैनः 605438011123773 और 111239511316289 1 . नरेश कुमार , 2. पवित्रा देवी 5. दौलत राम पता : डी—198, महेंद्र एन्क्लेव, शास्त्री नगर गाजियाबाद—201002	स्वर्ण जयंती पुरम, गाजियाबाद—201 013 में स्थित आवासीय द्वितीय तल, क्षेत्रफल 104 वर्ग मीटर, भूखंड संख्या डी—335 पर निर्मित,	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 43,57,782 / — (रु. तैंतालीस लाख सत्तावन हजार सात सौ बायसी मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024					
6	लैनः 610839211096656 1.रमेश चंद सैनी पुत्र, राम चंद्र सैनी, 2.सविता सैनी पत्नी, रमेश चंद सैनी पता : ओरंग शाह पुर, गोलाबाद, फजलपुर, बाला जी मंदिर के पास, मेरठ—250002	औरंगशाहपुर, गोलाबार (पुष्प विहार) मेरठ में स्थित आवासीय प्लॉट जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—5 है, जिसका माप 52 वर्ग गज या 47.55 वर्ग मीटर है, जिसमें खसरा नंबर 396डी शामिल है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएं — पूर्वः 20'7" / प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—6 है; पश्चिमः 21'7' / रोड; = उत्तरः 22'5" / प्लॉट, जो प्लॉट नंबर 7 का भाग—4 है; दक्षिणः 22'5" / मंदिर।	दिनांकः 11.05.2024 09.05.2024 के अनुसार रु. 6,48,945 /— (छह लाख अड़तालीस हजार नौ सौ पैंतालीस रुपये मात्र) एनपीए दिनांकः 07.05.2024					

उधारकर्ता(ओं) को एतद्दवारा सलाह दी जाती है कि वे मांग नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें एवं इसके ऊपर उल्लिखित मांग राशि के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर करें। उधारकर्ता यह नोट करें कि **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल, एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा अचल संपत्ति/संपत्तियों के प्रति एक सुरक्षित ऋण है जो उधारकर्ता (ऑ) द्वारा गिरवी रखी गई सुरक्षित संपत्ति है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से अपनी देनदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल, अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जिसमें सुरक्षित संपत्ति (ओं) का कब्जा शामिल है, लेकिन बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करने और भुगतान की वसूली तक सीमित नहीं है। **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को संलग्न और /या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल को भी बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानुनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मुल्य एसएमएफजी आईएचएफसीएल को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानुन के तहत **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर, उपलब्ध समय के संबंध में, प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को **एसएमएफजी** आईएचएफसीएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) को बेचने या पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य) कार्य) के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करने या डीलिंग करने से प्रतिबंधित किया / रोका जाता है। और उपर्युक्त का गैर अनुपालन उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : गुरुग्राम हरियाणा / नई दिल्ली, जी बी नगर / गाजियाबाद / मेरठ, उत्तर प्रदेश, दिनांकः 11.05.2024

हस्ता /- अधिकृत अधिकारी एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

DIGISPICE

डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः जेए-122, पहली मंजिल, डीएलएफ टॉवर ए, जसोला, नई दिल्ली - 110025 सीआईएन: L72900DL1986PLC330369

टेलीफोनः 011-41251965, ईमेलः complianceofficer@digispice.com; वेबसाइटः www.digispice.com

डाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 110 एवं अन्य लाग् प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014, भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, एवं इसके अनुक्रम में अन्य परिपत्रों, नवीनतम सामान्य परिपत्र 09/2023 दिनांकित 25 सितम्बर 2023, एवं किसी अन्य लाग् कान्न नियम, यिनियम, परिपत्र तथा दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुपालन में डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों के विचार हेत् निम्न उल्लिखित व्यवसाय(ओं) पर, डाक मतपत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से ('रिमोट ई-वोटिंग') संकल्पों का अनुमोदन कर पारित करने का प्रस्ताव किया जाता है:

मद संख्या	संकल्प	संकल्प का विवरण							
31.	विशेष संकल्प	श्री वेंकटरामु जयंती (डीआईएन 08918442) को कम्पनी के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने एवं उन्हें देय पारिश्रमिक का अनुमोदन							
2.	विशेष संकल्प								
3.	विशेष संकल्प	अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत निर्दिष्ट व्यक्तियों को ऋण देने, ऋण के संबंध में गारंटी देने या प्रतिभूतियां प्रदान करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकरण का अनुमोदन							
4.	साधारण संकल्प	कम्पनी के निदेशक श्री दिलीप मोदी (डीआईएन 00029062) द्वारा लाभ का पद या स्थान धारण करने का अनुमोदन							
5,	विशेष संकल्प	कम्पनी के कार्यकारी निदेशक श्री रोहित आहूजा (डीआईएन: 00065417) के पारिश्रमिक में संशोधन का अनुमोदन							

कम्पनी ने उन सदस्यों, जिनका नाम शुक्रवार, 24 मई, 2024 ('कट-ऑफ तिथि') के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर/ लाभार्थी स्वामियों की सुची में दर्ज था, को कम्पनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए'), मास सर्विसेज लिमिटेड, या डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत उनके ईमेल पतों पर सूचना भेजने का काम पूरा कर लिया है। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/लागार्थी स्वामियों की सूची में प्रदर्शित हैं, वे सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट खालने के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि पर कम्पनी की कुल जारी और प्रदत्त समता शेयर पूँजी में उनकी शेयरधारिता के अनुपात में होगी।

कम्पनी ने अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 31 मई, 2024 को 9.00 बजे पूर्वाह (आईएसटी) से आरम्भ होगी और शनिवार, 29 जून, 2024 को 5.00 बजे अपराह (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी सदस्य, जिन्हें किसी भी कारण से सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, या जिनका ईमेल पता डिपॉजिटरी अथवा आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनी को investors@digispice.com या कम्पनी के आरटीए को investor@masserv.com पर ईमेल लिख सकते हैं। सूचना को कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com); एनएसडीएल (www.evoting.nsdl-com); बीएसई (www.bseindia.com); या एनएसई (www.nseindia.com) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत / प्रश्न के मामले में, सदस्यों से अनुरोध है कि वे www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न तथा शेयरधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैनुअल संदर्भित करें या 022 - 4886 7000 अथवा 1800 1020 990 अथवा 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या आरटीए से 011-26387281, 82, 83 अथवा investor@masserv.com पर संपर्क करें।

डाक मतपत्र का परिणाम मतदान की समाप्ति के दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किया जाएगा। उक्त परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, कम्पनी की वेबसाइट (www.digispice.com), NSDL (www.evoting.nsdl.com), बीएसई (www.bseindia.com) और एनएसई (www.nseindia.com) पर अपलोड किया जाएगा। परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

कृते डिजिस्पाइस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

दिनांक: 30 मई 2024 स्थानः नोएडा

रुचि मेहता कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

केन फिन होम्स लि. शॉप नं. 4, चतुर्थ तल, एस.एल. टॉवर, निकट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कामर्शियल बेल्ट, अल्फा—1, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) पिन—201308 CIN: L85110KA1987PLC008699, ई—मेल: greaternoida@canfinhomes.cor मोबाइल सं : 7625079164, 0120—4569974 Can Fin Homes Ud

कब्जा सुचना [नियम ८(१)] अचल सम्पत्ति के लिए

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने केन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (2002 का 54) के तहत धारा 13(2) के तहत नियम के 3 के साथ पिटत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित **05.03.2024** को जारी की थी जिसमें कर्जदार **श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार** एवं श्रीमती रेखा देवी पत्नी श्री योगेश कुमार से सूचना में वर्णितानुसार बकाया राशि रु. 23,88,577 / - (रुपए तेईस लाख अट्ठांसी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र) और ब्याज उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सुचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा दिनांक 24 मई 2024 को प्राप्त कर लिया है।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया

विशेष रूप से कर्जदार / रों, गारंटर / रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेत सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी नव्यवहार केन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि **रु. 23,88,577 /** — (**रुपए तेईस लाख**। अट्ठासी हजार पाँच सौ सतहत्तर मात्र) और उस पर आगे ब्याज के प्रभाराधीन होगा। अचल सम्पत्ति का विवरण

प्लैट सं एफएफ—1, प्रथम तल बैक साइड, प्लॉट सं. 118, शालिमार गार्डन एक्सटेंशन—1, गाजियाबाद 201012। संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं:

उत्तरः फ्लैट सं. एफएफ–2 दक्षिणः प्लॉट सं. 117 पर्वः अन्य प्लॉट पश्चिमः फ्लैट सं. एफएफ-4

तिथिः 30.05.2024 स्थानः ग्रेटर नोएडा

प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड


🐠 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

निम्न लिखित ऋणी, सह-ऋणी व गारण्टर को सुचित किया जाता है सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत आपकी सम्पत्ति को एय स्मॉल फाइनेंस बेंक द्वारा विक्रय किया जा रहा है। यदि आप द्वारा नोटिस दिनांक से "7 दिवस" के भीतर बंधक सम्पत्ति में रखा हुआ सामान नहीं हटाया जाता है तो उक्त सामान का बेचान अथवा अन्यत्र किरायाशदा स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जायेगा । जिसके हर्जे, खर्चे व स्थानान्तरण के दौरान होने वाले नकसान के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे । सामान प्राप्त करने व इस सम्बन्ध में अन्य जानकारी हेतु सम्पर्क सुत्र पर कॉल करें या नजदीकी शास्त्रा में सम्पर्क करें।

ऋण खाता संख्या एवं ऋणी / सह-ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	सम्पर्क सृत्र
खाता संख्या : L9001060126806972 सेतिया ट्रेडर्स (ऋणी), पंकज सेतिया (सह-ऋणी), श्रीमती सुनीता सेतिया (सह-ऋणी)	संपत्ति स्थित खसरा नं. 558/78-84, सम्पत्ति नं. एक्स/1974, दुसरी मॉजिल सीलिंग लेवल तक, गली नं. 07, राजगढ़ एक्सटेंशन, गांव-घोंदली, इलका-शाहदरा, दिल्ली क्षेत्रफल 58.52 वर्ग मीटर	प्रतीक खत्री 8130079830
खाता संख्या : L9001060713621881 ऑकिंड किड्स पैराडाईज एज्यूकेशन सोसायटी जरिये सैकेटरी अरूण गोयल (ऋणी), दिनेश गोयल पुत्र ग्यासी राम गोयल (सह-ऋणी), श्रीमती चारू गोयल पत्नी अरूण गोयल (सह-ऋणी), अरूण गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी), श्रीमती परिसला देवी पत्नी दिनेश गोयल (सह-ऋणी), नितन गोयल पुत्र दिनेश गोयल (सह-ऋणी)	(1) संपत्ति स्थित बृथ नं. 108, संकटर 55, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्रफल 243 वर्ग फीट (2) संपत्ति स्थित मकान नं. एमसीएफ 37, मुस्तिकल नं. 78, किला नं. 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7, 8/8, इटीसी., गली नं. 02, जैन कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा, क्षेत्रफल 1350 वर्ग फीट	लित गाँड 8130304226

दिनांक- 30-05-2023 स्थान - दिल्ली

S/d प्राधिकृत अधिकारी एय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



CIN No.: L45201DL1983PLCO17225

पंजीकृत कार्यालय : 118, ऊपरी प्रथम् तल, प्रकाश दीप , 7, टॉल्स्टाय मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन : 23353051, 23353052,

ईमेल : info@ansalabl.com वेबसाइट : www.ansalabl.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के स्टैंडएलोन एवं समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों से लिये गए उद्वरण

		स्टैंडएलोन					समेकित					
क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
सं		मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	दिसम्बर 31, 2023 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2024 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	
1	प्रचालनों से कुल आय	360.09	2,381.00	548.57	4,297.07	2,706.75	367.14	2,489.32	553.75	4,416.24	3,560.74	
2	अवधि के लिये शुद्ध लाम / (हानि) (कर एव असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के पहले)	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15	
3	कर के पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(320.86)	1,536.50	267.69	1,449.39	133.36	(292.07)	1,625.53	265.34	1,527.11	122.15	
4	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बाद)	(256.03)	1,021.11	39.16	911.36	(104.87)	(772.17)	1,622.19	36.59	962.88	(116.76)	
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद)	(283.67)	983.08	38.34	836.42	(77.03)	(604.88)	1,646.59	(110.82)	1,375.78	(254.15)	
6	समतुल्य अंश पूंजी	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	738.38	
7	आय प्रति शेयर (इक्विटी प्रति शेयर ₹10) 1. मूलमूत : 2. द्रव्य :	(3.47)	13.83 13.83	0.53 0.53	12.34 12.34	(1.42) (1.42)	(6.80) (6.80)	21.80 21.80	(1.49) (1.49)	19.65 19.65	(3.82) (3.82)	

अंकेक्षित वित्तिय परिणामों के लिए टिप्पणियां

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30.05.2024

1. 30 मई 2024 को हुई बैठक में अंकेक्षित स्टेंडएलोन और समेकित वित्तिय परिणामों की समिक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन और अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए गए है, जो कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तिय विवरण के विस्तृत प्रारूप का सारकित अंश है। उपरोक्त पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.ansalabl.com पर उपलब्ध है।

3. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 10/-रुपये प्रति इक्विटी शेयर पर 1/-रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

4. कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष में जयपुर परियोजना से संबंधित ग्राहको के लिये देश मूल धनराशि कि राशि पर ब्याज वापिस करने का प्रावधान किया है,जो कि ₹ 535.50 लाख है।

बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से अंसल बिल्डवेल लि. हस्ता./-

> (शोभित चार्ला) पूर्णकालिक निदेशक DIN - 00056364

PARTAP INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: VIII Beopror, G.T. Raod. Near Shambhu Barrier, Distt. Patiala, Punjab-140417, INDIA. CIN: L15142PB1988PLC008614, Email: partaplisting2017@gmail.com

EXTRACT OF AUDITED	FINANCIAL RESULTS
FOR THE QUARTER AND YE	AR ENDED MARCH 31, 2024
	(INR in Lacs except
I	STANDALONE

		(INR in Lacs except per share data) STANDALONE						
SL. NO.	PARTICULARS	For the Quarter Ended			For the Year Ended			
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023		
1	Total Income from operations	8922.46	7007.22	7713.24	28495.77	38809.94		
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	486.08	59.45	(1,821.86)	453,69	2,782.63		
3	Total Comprehensive Income for the period	2,955.34	(120.80)	(1,647.77)	2,382.20	2,176.71		
34	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each)	32.02	32.02	32.02	32.02	32.02		
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation							
	(1) Basic	92.29	(3.77)	(51,46)	74.39	67.97		
	(2) Diluted	92.29	(3.77)	(51.46)	74.39	67.97		
				NR in Lacs o		hare data)		
st.		10000) 2520) 3600000000	708282334				
NO.	PARTICULARS	For the Quarter Ended			For the Year Ended			

- 4	Mark Charles	11 - 7 25 OVER 04	A CONTRACTOR			470,000
	-005004800-50 9	#		NR in Lacs e		hare data)
SL. NO.	PARTICULARS	CONSOLIDATED				
		For the Quarter Ended			For the Year Ended	
		31.03.2024	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024	31.03.2023
1	Total Income from operations	7,959.17	10,126.16	8,846.17	37,984.48	44,207.63
2	Profit/(loss) before Tax After Exceptional & extraordinary items	105.57	(376.37)	(2,215.39)	(631.98)	2,091.78
3	Total Comprehensive Income for the period	2,585.45	(556.62)	(2,008.81)	1,307.15	1,518.36
4	Paid-up Equity Share Capital (32,02,350 Equity Shares of INR 10/- each & 8,00,000 Equity Shares of INR 100/- each)	40.02	40.02	40.02	40.02	40.02
5	Earnings per equity (for Continuing operation) & Discontinued Operation					
	(1) Basic	64.60	(13.91)	(50.19)	32.66	37.94
	ALCOHOLDS	200	100000000	10000 1000	7 22323	2000

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the guarter and year ended 31st March: 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of www. msei.com and on

(13.91) (50.19)

Date: 30.05.2024 Place: Kolhapur

the Company's website at www.partapdenim.com

(2) Diluted

For Partap Industries Limited Sudarshan Paul Bansal Chairman & Managing Director

Lucknow

www.readwhere.com